



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 3—मई 9, 2008 (वैशाख 13, 1930)  
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3—MAY 9, 2008 (VAISAKHA 13, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of  
the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 9 अप्रैल 2008

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 अप्रैल 2008

सं. ए-60011/8/05-सू.अधि.अधिनियम प्रकोष्ठ (प्रशा.)--दिनांक 9  
अप्रैल, 2007 की अधिसूचना के आंशिक आशोधन तथा सूचना अधिकार  
अधिनियम, 2005 की धारा 19 के संदर्भ में श्री के. एम. शाहिद, संयुक्त  
सचिव के स्थान पर श्री आर. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव (सेवा-1 क) को  
निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त  
किया जाता है :-

सं. डीपी/पर्स-1/2008/1075/ए-34012/7/2005--श्री एस. पी. नरूला  
ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.3.2008 अपराह्न से निजी  
सचिव, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

(श्रीमती) एम. सचदेव  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

अपीलीय प्राधिकारी का नाम	विषय वस्तु	दूरभाष नं.	संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम
श्री आर. के. सिन्हा संयुक्त सचिव (सेवा-1 क)	भारी शास्ति से संबंधित आयोग को भेजे गए सभी अनुशासनिक मामलों से संबंधित सभी मामले	23070813	श्री बच्चन कुजूर, (सेवा-1 समन्वय)

सं. डीपी/पर्स-1/2008/1076/ए-34012/7/2005--श्री जेड. जोसफ ने  
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.3.2008 अपराह्न से निजी सचिव,  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

(श्रीमती) एम. सचदेव  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 15 अप्रैल 2008

सं. डीपी/पर्स-1/2008/78/3/14/2008--राष्ट्रपति ने श्री राम किशन को, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में उनकी पदोन्नति पर, दिनांक 31 अप्रैल, 2008 (अपराह्न) से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अगले आदेश तक पूर्णतया तदर्थ आधार पर प्रशासन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

श्री राम किशन की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम.ए. सं. 2710/2005 में दिनांक 11.1.2007 के आदेश के अध्वधीन है।

(श्रीमती) एम. सचदेव  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 17 अप्रैल 2008

सुद्धिपत्र

सं. डीपी/पर्स-1/2008/0081/3/14/2008--केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रशासन अधिकारी श्री राम किशन की कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अधिसूचना सं. डीपी/पर्स-1/2008/78/3/14/2008 दिनांक 15.4.2008 के पैरा 1 की दूसरी लाइन में 31 अप्रैल, 2008 के स्थान पर 31 मार्च, 2008 पढ़ा जाए।

(श्रीमती) एम. सचदेव  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय  
न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 अप्रैल 2008

सं. 33/04/2005-प्रशा. (एफ.एस.)--राष्ट्रपति, श्री माहिन्दर सिंह, उप सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख को न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय के अधीन सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख, हैदराबाद के कार्यालय में दिनांक 1.4.2008 से सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख के पद पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- में पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

डा. एम. एस. राव  
निदेशक (एफ.एस.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. ओ. डी. 4242/08-कार्मिक-1--श्री टी. एन. सहाय, उप कमाण्डेंट (इरला-4242) ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल इम्फाल (एन.एस.जी. में प्रतिनियुक्ति पर) का सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस दिनांक 19.6.2007 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 7.9.2007 (पूर्वाह्न) में त्याग दिया है। अतः

इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 7.9.2007 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 अप्रैल 2008

सं. पी. तीन-2/2008-कार्मिक-3--सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप, कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल, नई दिल्ली के श्री इ. वी. विजयन (इरला संख्या-7253) ने प्रशासनिक अधिकारी का पदभार दिनांक 31.3.2008 (अपराह्न) की त्याग दिया।

के. के. शिवा प्रसाद  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 अप्रैल 2008

सं. ई-28017/1/नोटि/2008/कार्मिक-2/803--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर निम्नलिखित अधिकारियों ने सरकारी सेवा से उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि और इकाई से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	तिथि	इकाई
1.	स्वराज कुमार मुखर्जी (सुपरएनुवेषन)	उप कमाण्डेंट	31.3.2008	एन डी आर एफ बटालियन मुण्डली
2.	सी एम राजगोपाल (सुपरएनुवेषन)	उप कमाण्डेंट	31.3.2008	के.ओ.सु.ब ए.एस.जी. कोयमबदूर
3.	के अशोक (स्वैच्छिक)	सहायक कमाण्डेंट	14.3.2008 (पूर्वाह्न)	के.ओ.सु.ब इकाई एन पी एम जागी रोड (आसाम)

हस्ता./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब

वित्त मंत्रालय  
बैंक नोट मुद्रणालय

(भारत प्रतिभूति तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

देवास, दिनांक 9 अप्रैल 2008

सं. बीएनपी/सी/44/98-1--श्री ए. खलखो (अ.ज.जा.) नियंत्रण निरीक्षक को उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 6,500-200-10,500/- (समूह-ख राजपत्रित) में दिनांक 4.4.2008 से 3.12.2008 तक के लिए पूर्णतः तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

डी. व्ही. गोंडनाले  
महाप्रबन्धक

सं. बीएनपी/सी/44/98--श्री के. आर. दोहरे (अ.जा.) नियंत्रण निरीक्षक को उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 6,500-200-10,500/- (समूह-ख राजपत्रित) में दिनांक 4.4.2008 से अन्य आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

डी. व्ही. गोंडनाले  
महाप्रबन्धक

सं. बीएनपी/सी/44/98--श्री के. एल. गोर्या को अधिसूचना दिनांक 21.8.2007 के द्वारा दी गई तदर्थ पदोन्नति की अवधि उन्हीं शर्तों पर दिनांक 1.3.2008 से 31.8.2008 तक बढ़ाई जाती है।

डी. व्ही. गोंडनाले  
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. ले.प/प्रशासन III/9-1/खंड II/4--निम्नलिखित लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से 8,000-275-13,500/- रु. वेतनमान पर वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों के पद पर पदोन्नत की गई हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	श्री/श्रीमती	
1.	पी. कृष्णन नायर (सं. 3)	01.01.2007
2.	ई. रामैया	01.01.2007
3.	एस. आर. बाबुराज	01.01.2007
4.	पी. शिवदासन (सं. 2)	01.01.2007
5.	एस. नवीन कुमार	01.01.2007
6.	एस. सोमशेखरन नायर	01.01.2007
7.	सी. एस. सदानंदन	01.01.2007
8.	के. रवींद्रन	01.01.2007
9.	के. वी. दिनमणी	01.01.2007
10.	फिलिप तोमस	01.01.2007
11.	के. पी. केशवन नायर	01.01.2007
12.	ए. मैनुअल	01.01.2007
13.	ओ. वी. सिसिलि	01.01.2007
14.	एम. टी. आन्टोनी	01.01.2007

1	2	3
15.	के. अब्दुल लतीफ	01.01.2007
16.	के. ए. कुरियाक्कोस	01.01.2007
17.	एन. श्रीधरन नंपूतिरी	01.01.2007
18.	पी. गोपिनाथन नायर	01.01.2007
19.	एम. रामभद्रन पिल्लै	01.01.2007
20.	वी. जे. जोसेफ (सं. 3)	01.01.2007

वि. उणिक्कण्णन  
उप महालेखाकार/प्रशासन

सं. ले.प/प्रशासन III/9-1/खंड II--निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से 7,450-225-12,500/- रु. वेतनमान पर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों के पद पर पदोन्नत की गई हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	श्री/श्रीमती	
1.	आर. श्रीकुमारी	01.01.2007
2.	एम. एस. राजलक्ष्मी	01.01.2007
3.	वी. नंदकुमार	01.01.2007
4.	लक्ली जोसफ	01.01.2007
5.	वी. वेणुकुमार	01.01.2007
6.	एन. जे. तोमस	01.01.2007
7.	के. विजयश्री	01.01.2007
8.	पी. एम. निर्मल	01.01.2007
9.	पी. अजित	01.01.2007
10.	के. एम. मुरलीकृष्णन	01.01.2007
11.	बी. प्रेमचंद्रन नायर	01.01.2007
12.	एल. पार्वती शेखर	01.01.2007
13.	इम्मानुवेल जोर्ज	01.01.2007
14.	पी. बी. लता	01.01.2007
15.	पी. गीता	01.01.2007
16.	पी. जोली सिरियक	01.01.2007
17.	जी. मेरसी	01.01.2007
18.	पी. वी. सुशीला	01.01.2007

1	2	3
19.	के. मुरलीधरन	01.01.2007
20.	के. ईश्वरन नंपूतिरि	01.01.2007
21.	जी. सुभद्रा देवी	01.01.2007
22.	पी. बी. चन्द्रन	01.01.2007
23.	एम. डी. जोसिमोन	01.01.2007
24.	एस. रामचन्द्रन नायर	01.01.2007
25.	वी. एस. सुनिल	01.01.2007
26.	घीजा तोमम	01.01.2007
27.	मेरिस उम्मन	01.01.2007
28.	वी. सुब्बलक्ष्मी	01.01.2007

वि. उणिक्कण्णन  
उप महालेखाकार/प्रशासन

सं. ले.प/प्रशासन III/9-1/खंड II--निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से 7,500-250-12,000/ रु. वेतनमान पर लेखा परीक्षा अधिकारियों के पद पर पदोन्नत की गई हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	श्री/श्रीमती	
1.	बी. एस. वसंतकुमारी	03.07.2006
2.	के. के. उदयन	03.07.2006
3.	के. सुरेन्द्रन (सं. 2)	03.07.2006
4.	टी. अमला	03.07.2006
5.	के. ए. देवरसी	01.08.2006
6.	पी. के. रवींद्रन (सं. 2)	01.08.2006
7.	वी. एस. हमीद	01.09.2006
8.	एम. के. तुलसी बाई	12.10.2006
9.	टी. के. जोसफ	12.10.2006
10.	एस. पी. एन. विष्णु नंपूतिरि	12.10.2006
11.	आन्टोनी जोसफ	01.11.2006
12.	फिलिप के. के. क्रियन	01.02.2007
13.	एन. रामनाथ अय्यर	01.02.2007
14.	एम. एस. जोसफ	01.02.2007

1	2	3
15.	डैसी जेकब	01.02.2007
16.	के. एन. राजगोपालन नायर	01.02.2007
17.	के. पी. फिलिप	01.03.2007
18.	पी. जी. प्रतापन	01.03.2007
19.	आर. पुरुषोत्तमन पिल्लै	01.03.2007
20.	जे. सुचेता	01.03.2007
21.	टी. सुकुमार पिल्लै	01.05.2007
22.	के. कुञ्जबुल्ला	01.05.2007
23.	टी. पी. मनोहरन	01.05.2007
24.	मञ्जुराणी नायर	01.05.2007
25.	बी. सी. परमेश्वरन नायर	01.06.2007
26.	जी. वेणुगोपाल	04.06.2007

वि. उणिक्कण्णन  
उप महालेखाकार/प्रशासन

महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. का.स्था./ह व रो/ई IV पै/5--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुई हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती के. ए. एलिकुट्टी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.03.2008 अ. (अधिर्वर्षिता)
2.	श्रीमती एल. रत्नाकुमारी	सहायक लेखा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.03.2008 अ. (अधिर्वर्षिता)

के. विजयकुमारन  
वरिष्ठ उप लेखाकार (प्रशासन)

प्रमुख महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) का कार्यालय, ओडिसा

भुवनेश्वर, दिनांक 17 अप्रैल 2008

सं. प्रशा. I (लेप)-3-1-1/भाग VI/145--ज्ञापन सं. प्रशा. I (लेप)-3-1-1/भाग VI/2757, दिनांक 26.3.2008 द्वारा सूचित का.आ.ग. 1373, दिनांक 26.3.2008 के अनुपालन में निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से

वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/- पर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए :-

दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1.	ज्योस्तना धल	26.03.2008 (पूर्वाह्न)
2.	बिभूति भूषण पात्रो	26.03.2008 (पूर्वाह्न)
3.	बिजय कुमार प्रहराज	26.03.2008 (पूर्वाह्न)
4.	प्रकाश चंद्र साबत	26.03.2008 (पूर्वाह्न)

आर. के. दास  
लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

शुद्धिपत्र

सं. 1168ए/ए-32013/3-सहा. रसा./99/19बी--इस कार्यालय के दिनांक 13.12.2007 के अधिसूचना संख्या ए-3708/बी से 3739/बी-ए-32013/3-सहा. रसा./99/19बी में आंशिक संशोधन करते हुए उल्लेख है सहायक रसायनज्ञ श्रेणी-I में श्री सुरेश च. प्रसाद की कार्यग्रहण की तिथि 2.8.2007 (अपराह्न) के बदले यथा 6.8.2007 (अपराह्न) पढ़ी जाए और सहायक रसायनज्ञ श्रेणी-I में श्रीमती तुलसी धरम शक्तु की कार्यग्रहण तिथि 6.8.2007 (पूर्वाह्न) के बदले यथा 6.8.2007 (अपराह्न) पढ़ी जाए। अन्य विषय वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

कार्तिकेय वर्मा  
प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I  
कृते महानिदेशक

खान मंत्रालय

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 11 अप्रैल 2008

सं. 675बी/ए-32013/2-निदे. (भूभौति.)/2007-08/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित भूभौतिकीविदों (वरिष्ठ) की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर, नियमित आधार पर निदेशक (भूभौतिकी) के रूप में नियुक्ति आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर अनुमोदित करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	तैनाती स्थान	पदोन्नति की तिथि
1.	डा. दिनेश गुप्ता	पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर	04.12.2007 (अपराह्न)
2.	श्री दिलीप कुमार साहा	केन्द्रीय भूभौतिकी प्रभाग, कोलकाता	04.12.2007 (अपराह्न)
3.	श्री एस. सिद्धैयाह	ह.ख.स.ग. स्कंध, बंगलौर	04.12.2007 (अपराह्न)
4.	श्री च.व.वी. सत्यनारायण मूर्ति	ह.ख.स.ग. स्कंध, बंगलौर	01.01.2008 (पूर्वाह्न)
5.	श्री एम. एस. वैकटरमणी	परि: तमिलनाडु पांडिचेरी एवं केरल दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई-90	01.01.2008 (पूर्वाह्न)
6.	श्री जी. जवाहर	दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद	25.01.2008 (पूर्वाह्न)
7.	श्री बी. सत्यनारायण	परि: पूर्वी तट-II, समुद्री स्कंध, विशाखापत्तनम-530017	01.02.2008 (पूर्वाह्न)

कार्तिकेय वर्मा  
प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I  
कृते महानिदेशक

सं. 1167ए/ए-32013/2-भूभौति. (कनि.)/2007-08/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित सहायक भूभौतिकीविद श्रेणी-I की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर भूभौतिकीविद (कनिष्ठ) के रूप में नियुक्ति आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर अनुमोदित करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति का तिथि
सर्वश्री		
1.	जी. एस. आर. उमा शंकर	31.01.2008 (अपराह्न)
2.	एच. चन्नाबसनगौड़ा	31.01.2008 (अपराह्न)
3.	डॉ. राजकिशोर सिंह	31.01.2008 (अपराह्न)
4.	डॉ. एस श्रीनिवास	01.02.2008 (पूर्वाह्न)
5.	एच. राजाराम	31.01.2008 (अपराह्न)

कार्तिकेय वर्मा  
प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I  
कृते महानिदेशक

कोलकाता-16, दिनांक 14 फरवरी 2008

सं. 310बी/ए-19011(6-एस.सी.)/2007-19ए--राष्ट्रपति जी, डा. (श्रीमती) सुजाता चक्रवर्ती को खनिज विज्ञानी (वरिष्ठ) (समूह 'क' राजपत्रित) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में 01.01.2008 के पूर्वाह्न से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

डी. टी. सिम्लेह  
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)  
कृते महानिदेशक

दिनांक 15 अप्रैल 2008

सं. 1078सी/ए-19011(6-डी.आर.)/2007-19ए--राष्ट्रपति जी, श्रीमती दीप्ति आर. को खनिज विज्ञानी (कनिष्ठ) (समूह 'क' राजपत्रित) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में 27.02.2008 के पूर्वाह्न से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

डी. टी. सिम्लेह  
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)  
कृते महानिदेशक

सं. 1077सी/ए-32013/पी.एस./2006-19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निम्नलिखित आशुलिपिक श्रेणी-1 (समूह 'ख' अराजपत्रित) को निजी सचिव (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर इसी विभाग में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर स्थानापन्न रूप में आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	कार्यग्रहण की तिथि
1.	श्री के. कृष्ण प्रभु	27.12.2007 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एफ. बी. पिंटो	26.12.2007 (अपराह्न)

डी. टी. सिम्लेह  
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)  
कृते महानिदेशक

दिनांक 22 अप्रैल 2008

सं. 1140एसपी/ए-32013/वरि.उपमहानिदेशक.(एस. एंड टी.एस. एस.)/2005-19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, डॉ. पी. एन. राजदान, उपमहानिदेशक (भूरसा.), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को वरिष्ठ उपमहानिदेशक (वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग सेवाएं) के पद पर, इसी विभाग में रु. 22,400-525-24,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर 28.02.2008 (अपराह्न) से प्रभावित आगामी आदेशों तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

डी. टी. सिम्लेह  
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)  
कृते महानिदेशक

कोलकाता, दिनांक 11 अप्रैल 2008

सं. 673बी/ए 19011(6-ए.आर.)/2007-19ए--राष्ट्रपति जी, श्री आनन्द को खनिज विज्ञानी (कनिष्ठ) (समूह 'क' राजपत्रित) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान

के न्यूनतम वेतन में अस्थायी रूप में 18.02.2008 के पूर्वाह्न से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

बी. एम. गालव  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2008

सं. 10/1/2000-एम--प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के नियम 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सी. दोरजी, निदेशक (स्मारक) एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1959 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर 18 अप्रैल, 2008 को विश्वदाय दिवस समारोह के अवसर पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सी. दोरजी  
निदेशक (स्मारक)  
कृते महानिदेशक

उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

सं. 6-1/2006-बी.पी.-2 (आवास)--पी.यू.सी.एल. बनाम भारत संघ की 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 में दिनांक 12.7.2006 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित कार्यकरण को प्रभावित कर रही कमियों की जांच करने के लिए दिनांक 1.12.2006 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा न्यायाधीश डी. पी. वधवा की अध्यक्षता में केन्द्रीय सतर्कता समिति का गठन किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता समिति का कार्यकाल उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दिनांक 8.5.2007 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा 31.8.2007 तक बढ़ाया गया था।

समिति ने 21.8.2007 की अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी थी।

केन्द्रीय सतर्कता समिति का कार्यकाल उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.1.2008 के आदेश द्वारा 11.1.2008 से और 6 माह के लिए बढ़ाया गया था। अतः उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31.3.2008 के आदेश द्वारा निदेश दिया है कि 1.9.2007 से 10.1.2008 तक की बीच की अवधि को केन्द्रीय सतर्कता समिति के बढ़े हुए कार्यकाल के रूप में माना जाए।

डॉ. भगवान सहाय  
संयुक्त सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र  
मुम्बई-400085, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 93/अधि./स्था. 1A/40688--निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए

पद, कॉलम-4 पद पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पद दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का पद	पदत्याग करने की तारीख	घटना
1.	डॉ. (श्रीमती) कांचन कोठारी	वै.अ./जी	03.03.2008 (पूर्वा.)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
2.	श्री सानू मथ्यू	वै.अ./सी	05.03.2008 (अप.)	त्यागपत्र
3.	श्री सुदीप रे	वै.अ./इ	05.03.2008 (अप.)	त्यागपत्र
4.	श्रीमती शलाकाएस पितले	वै.अ./डी	07.03.2008 (अप.)	त्यागपत्र
5.	श्री राजीव साहू	वै.अ./डी	11.03.2008 (अप.)	त्यागपत्र
6.	श्री बी. संभासीवा राव	वै.अ./एफ	13.03.2008 (पूर्वा.)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
7.	श्री पंकज मिश्रा	वै.अ./डी	14.03.2008 (अप.)	त्यागपत्र
8.	डॉ. के. आर. सुधीर	वै.अ./सी	14.03.2008 (अप.)	तकनीकी त्यागपत्र
9.	श्री एस. के. जैन	वै.अ./एच	31.03.2008 (अप.)	अधिवर्षिता
10.	श्री के. सोमकुमार	वै.अ./एफ	31.03.2008 (अप.)	अधिवर्षिता
11.	श्री पी. डी. मीथापारा	वै.अ./इ	31.03.2008 (अप.)	अधिवर्षिता
12.	डॉ. रवी कुमार खेर	वै.अ./एच	31.03.2008 (अप.)	अधिवर्षिता
13.	श्री शिव कुमार तंगी	वै.अ./एच	31.03.2008 (अप.)	अधिवर्षिता
14.	श्री गोपाल पामनदास शहदादपुरी	वै.अ./एफ	31.03.2008 (अप.)	अधिवर्षिता
15.	डॉ. (श्रीमती) शोभा विजयकुमार पादकर	वै.अ./एच	31.03.2008 (अप.)	अधिवर्षिता
16.	श्री एब्राहिम वरुगिस	वै.अ./एफ	31.03.2008 (अप.)	अधिवर्षिता
17.	श्री दत्तु शंकर देशीगंकर	वै.अ./एच	31.03.2008 (अप.)	अधिवर्षिता

एन. डी. शर्मा  
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग  
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

सं. सीईसीसी/पदोन्नत (अगस्त)/2007/4232--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारियों (एफ) के पद पर काम करने के लिए 1 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतनमान
1.	श्री एम. के. चक्रवर्ती	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-
2.	श्री आर. एन. शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-
3.	श्री ए. के. मुखर्जी	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-
4.	श्री एस. रामनारायन	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-
5.	डॉ. (श्रीमती) पी. दास	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-
6.	श्री ए. दत्ता गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-
7.	श्री बिधान चौ. मंडल	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-

एस. बी. बोस  
प्रशासनिक अधिकारी-III

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पाक्कम-603102, दिनांक मार्च 2008

सं. इगापअके/ए-11013/2008-भर्ती--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अधिकारी को इस विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'सी' के आरंभिक वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- के आरंभिक वेतन रु. 9,100/- पर दिनांक 01 सितम्बर 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

नाम (श्री/कु.)	पहचान पत्र सं./प्रभाग
जूबी अब्राहम	6653/एमएचडी/एनईजी

बी. दयालन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. इगापअके/ए-11013/2008-भर्ती--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अधिकारी को इस विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'सी' के आरंभिक वेतनमान

रु. 8,000-275-13,500/- के आरंभिक वेतन रु. 9,375/- पर दिनांक 01 सितम्बर 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम (श्री/कु.)	पहचान पत्र सं./प्रभाग
1.	निहारिका सोनी	6652/एसजी
2.	पी. श्यामला राव	6654/एसएसएस/एमएसडी

वी. दयालन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 9 अप्रैल 2008

सं. आईजीसी/पीएफ/6621/2008-आर--राष्ट्रपति महादेय, डॉ. आर. रामशेषण को इस विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्याणकम में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई' के वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- के आरंभिक वेतन रु. 12,375/- पर दिनांक 28.06.2007 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

वी. दयालन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

जल संसाधन मंत्रालय  
केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

एन.एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 9 अप्रैल 2008

सं. 8-20/2006-ईजी.स्था. 261- विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह-ख, राजपत्रित) की सिफारिश पर निम्नलिखित अधिकारियों को 7,500-250-12,000/- रुपये प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान में सहायक अभियंता समूह-ख, (राजपत्रित) के पद पर अस्थाई रूप से उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	कार्य स्थान	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री टी. जल जाका	मुख्यालय फरीदाबाद	09.01.08
2.	श्री सी. आर. चेहेलिया	मुख्यालय फरीदाबाद	31.01.08
3.	श्री पी. नरगधन	प्रभाग-14, बंगलौर	14.01.08
4.	श्री एम. गननसकरन	प्रभाग 4, चेन्नई	14.01.08
5.	श्री एस. टी. नरसिंहन्	प्रभाग-9, हैदराबाद	10.01.08

वे कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

एस. के. सिन्हा  
निदेशक (प्रशासन)

7,500-250-12,000/- रुपये प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान में सहायक अभियंता समूह-ख, (राजपत्रित) के पद पर अस्थाई रूप से उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	कार्य स्थान	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री डी. एन. यादव	प्रभाग-17, धर्मशाला	02.11.07
2.	श्री टी. शिवरामायन	प्रभाग-9, हैदराबाद	21.01.08
3.	श्री शेख शब्बीर अली	प्रभाग-9, हैदराबाद	17.01.08
4.	श्री केशर देव	प्रभाग-6, नागपुर	28.11.07
5.	श्री जनक लाल इंवली	प्रभाग-6, नागपुर	08.11.07

वे कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

एस. के. सिन्हा  
निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 21 अप्रैल 2008

सं. 3-1608/2008-अनु. स्था. 2330--विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह-ख) की सिफारिशों पर निम्नलिखित अधिकारियों को 7,500-250-12,000/- रुपये के वेतनमान पर प्रशासनिक अधिकारी, सा. सि.से (समूह-ख) (राजपत्रित) के पद पर केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड में अस्थाई आधार पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि के (पूर्वाह्न) से पदोन्नत किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्रीमती चिन्ममा के. सी	4.2.08
2.	श्री एस. आनन्द राव	31.1.08
3.	श्री प्रसेनजित राय	21.1.08
4.	श्रीमती सारम्मा थॉमस	15.2.08
5.	श्री वी. एस. माधुर	25.1.08

उपरोक्त पदाधिकारी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे जो कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर बढ़ाई जा सकती है।

सन्तोष कुमार सिन्हा  
निदेशक (प्रशासन)

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय  
कार्यालय : कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स समर्थ सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. 8-20/2006-ईजी.स्था. 262- विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह-ख, राजपत्रित) की सिफारिश पर निम्नलिखित अधिकारियों को

सं. आर.ओ.सी./560/4504/453--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है



कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स समर्थ सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स राधा गोविन्द मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।  
जयपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. आर.ओ.सी./560/16741/457--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राधा गोविन्द मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स के. कुमार एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।  
जयपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. आर.ओ.सी./560/7615/461--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स के. कुमार एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एन. एजुकेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।  
मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00052/128340/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एन. एजुकेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

एल्सी पापाचन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स प्राबस ऑर्गनिक प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00287/87664/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्राबस ऑर्गनिक प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इंटरनेक्सस नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00123/117408/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इंटरनेक्सस नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स प्रोफेशनल मोटर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00586/123790/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रोफेशनल मोटर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अल मोड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00086/102947/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अल मोड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स व्ही. एण्ड व्ही. कॉम्पटेक सिस्टीम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00361/117943/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स व्ही. एण्ड व्ही. कॉम्पटेक सिस्टीम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स लालचंद सीरूमल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00407/109400/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लालचंद सीरूमल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स साई कृपा डेवलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00096/103106/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साई कृपा डेवलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इनफोनेट सायबर कैंफे प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00513/117984/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इनफोनेट सायबर कैंफे प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ला फैमिली हॉटेल्स एण्ड रिसॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00375/111133/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ला फैमिली हॉटेल्स एण्ड रिसॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अभिजान टेक्नो क्रॉटस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00445/105277/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अभिजान टेक्नो क्रॉटस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डब फायनान्शीयल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00367/105235/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डब फायनान्शीयल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मधुर व्हॉल्वेस एण्ड लेजर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00006/058850/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मधुर व्हॉल्वेस एण्ड लेजर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्टर्लि एग्री एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00181/084086/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्टर्लि एग्री एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. एच. डी. मैकनाईट एण्ड शेओरी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00984/106858/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जी. एच. डी. मैकनाईट एण्ड शेओरी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स चोप्रा कम्प्युटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00484/101282/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चोप्रा कम्प्युटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जेमिनी एक्वा प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00176/078376/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेमिनी एक्वा प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पी पी एच इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00122/101041/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पी पी एच इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पोलारिज एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00170/080829/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पोलरिज एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स राज किशोर फीन-लीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00102/111972/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राज किशोर फीन-लीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स प्रमाण सिक्कुरिटीज एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00093/112670/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रमाण सिक्कुरिटीज एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स राजहंस डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00127/101618/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राजहंस डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स आशीश होम मेकर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00080/104123/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आशीश होम मेकर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स लेरॉय हॉटिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00260/101764/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लेरॉय हॉटिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रोमा फॉरेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00008/109882/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रोमा फॉरेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वृषाली सेल एण्ड सर्विसेस  
(इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00022/113143/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वृषाली सेल एण्ड सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स साल्वी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00251/101800/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साल्वी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिंडीकेट टोबैको कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00245/101944/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिंडीकेट टोबैको कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कोंकण ग्रीनफिल्ड एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00314/92049/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोंकण ग्रीनफिल्ड एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ब्लूम फ्लोरिकल्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00293/83066/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्लूम फ्लोरिकल्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नाशिक एग्रो प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00307/91865/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नाशिक एग्रो प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स फेरमे वर्टे एग्रो-टेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00281/87429/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फेरमे वर्टे एग्रो-टेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अशराज फूड स्पेशलिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00301/89782/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अशराज फूड स्पेशलिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स 3 आहारा एग्रो एण्ड गोड फार्मस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00436/112924/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स 3 आहारा एग्रो एण्ड गोड फार्मस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अमेलिया रिसर्ट्स एण्ड प्लान्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00428/111782/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अमेलिया रिसर्ट्स एण्ड प्लान्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स तुलसी एग्रो फूड प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00401/100250/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तुलसी एग्रो फूड प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वनजीवन प्लान्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00421/107123/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वनजीवन प्लान्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्कायलार्क एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00384/95213/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्कायलार्क एग्रो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सनराईज एगोटैक एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00412/101724/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनराईज एगोटैक एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जितेन एग्रो लैन्ड एण्ड फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00349/95201/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जितेन एग्रो लैन्ड एण्ड फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सरफेस एग्रोफाईन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00340/93835/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सरफेस एग्रोफाईन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स साईपेंटा प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00058/81893/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साईपेंटा प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रामशरण एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00335/92883/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स हरीक एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00053/81684/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हरीक एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बिसानी एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00326/92317/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बिसानी एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शांग्रीला हिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00047/81568/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शांग्रीला हिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मोगल एग्रो कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00041/80225/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मोगल एग्रो कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स छाया एग्रो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00019/79484/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स छाया एग्रो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अंकुर एग्रोहोर्ट प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00030/79596/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अंकुर एग्रोहोर्ट प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गार्डन वेफर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00015/79408/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गार्डन वेफर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दोंडाइच फार्म प्रोडक्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00026/79490/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दोंडाइच फार्म प्रोडक्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गोवर्धन एनवायरोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00012/79362/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोवर्धन एनवायरोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रूद्राक्ष एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00008/79207/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रूद्राक्ष एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स होराइजन एग्रीकॉम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00195/83987/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स होराइजन एग्रीकॉम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ओमभारती एग्रोबेस्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00204/87071/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओमभारती एग्रोबेस्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मिड टाऊन एगो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00186/83678/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मिड टाऊन एगो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साऊथ इंडिया एगो फार्मस् डेवलपमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00199/85483/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साऊथ इंडिया एगो फार्मस् डेवलपमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पालवाल फार्मस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00183/83655/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पालवाल फार्मस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स परसेओनी तालुका एगो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00180/83281/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स परसेओनी तालुका एगो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अखिल बायोटेक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00167/82040/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अखिल बायोटेक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अफमन एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00174/82751/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अफमन एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नटराज रेसिस् एण्ड एडेसिस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00257/131478/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नटराज रेसिस् एण्ड एडेसिस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्वानी एगो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00171/82388/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्वानी एगो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिमफोनी प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00264/136927/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिमफोनी प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स राहुल पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00204/116370/560(3) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राहुल पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स यू. के. पेपर मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00107/114357/560(3) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स यू. के. पेपर मार्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इम्प्रेस पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00183/112713/560(3) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इम्प्रेस पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मास्टर फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00192/113595/560(3) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मास्टर फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स टोटल एक्सप्रेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00576/090995/560(3) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टोटल एक्सप्रेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स लिक्वेट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00562/013681/560(3) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लिक्वेट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जेटएज पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00546/140204/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेटएज पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रंजना पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00169/104585/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रंजना पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स राजी पेपर बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00528/139328/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राजी पेपर बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सनराँक पेपिअर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00177/109427/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनराँक पेपिअर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जयराज पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00518/138781/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जयराज पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वाडिया पटेल एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00608/012461/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वाडिया पटेल एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इमोटैक पेपर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई 400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00595/132942/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इमोटैक पेपर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अनिशा पेपर एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00033/089097/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अनिशा पेपर एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स विस्टा बोर्ड्स एण्ड पेपर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00011/082058/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विस्टा बोर्ड्स एण्ड पेपर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स राज पल्प एण्ड पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00040/089621/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राज पल्प एण्ड पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वैद्यनाथ पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00024/083903/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वैद्यनाथ पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स हीरो पेपर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00123/090132/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हीरो पेपर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सुदर्शन पोलो फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00132/091209/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुदर्शन पोलो फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जेनस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00208/121214/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेनस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्रद्धा पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00140/097741/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रद्धा पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पल्म ग्रोव पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00151/099051/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पल्म ग्रोव पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अक्सीओम इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00148/097861/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अक्सीओम इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मेहाडिया कोन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00161/100003/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेहाडिया कोन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बॉम्बे वेनर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00016/046814/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बॉम्बे वेनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कॉसमो वूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00020/066841/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कॉसमो वूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शिव शंकर प्लाईवूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई 400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00026/070340/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिव शंकर प्लाईवूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जयश्री टीक वूड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00032/074362/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जयश्री टीक वूड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रिलायबल वूड प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00039/080025/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रिलायबल वूड प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्रद्धा टिम्बर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00047/080969/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रद्धा टिम्बर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स लेमिनेटस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00053/087746/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लेमिनेटस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डेविस लेमिनेटस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00072/096572/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डेविस लेमिनेटस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सुपर नेचुरलप्लाई प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00059/087937/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुपर नेचुरल-प्लाई प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ऑसमिक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00080/098253/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ऑसमिक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सुलभ प्लाईवूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00066/088565/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुलभ प्लाईवूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शांति टीक एण्ड प्लाई प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00086/099147/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शांति टीक एण्ड प्लाई प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिनगानी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00091/110150/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिनगानी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ब्रिटी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00173/092476/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्रिटी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वानडरेक्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई 400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00100/114670/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वानडरेक्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कांतिश्वर प्लाईवूड  
मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00107/118172/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कांतिश्वर प्लाईवूड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्नेह दया नयन प्लाई एण्ड लैमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00166/062322/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्नेह दया नयन प्लाई एण्ड लैमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डेकोरेन्ज लामी एण्ड डोर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00113/118918/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डेकोरेन्ज लामी एण्ड डोर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मैसूर लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00127/120302/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मैसूर लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स संजीवनी प्लाईवूड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00135/137240/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स संजीवनी प्लाईवूड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिगनम सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00143/147940/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिगनम सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स निताशा वेनर्स इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00123/119618/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेनर्स इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ब्रायटी अम्युजमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00466/105154/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्रायटी अम्युजमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एन. आर. एच. फायब्रोटेक  
एण्ड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00196/105233/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एन. आर. एच. फायब्रोटेक एण्ड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सायली फिन-कैप प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00190/105259/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सायली फिन-कैप प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रेमिन होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00187/105265/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रेमिन होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जय-अन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00184/105266/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जय-अन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बे कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00181/105315/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बे कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स काइट इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00177/105337/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स काइट इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शोराज कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00375/105356/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शोराज कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स दिव्या कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00342/105485/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दिव्या कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मुरबाड इलेक्ट्रिकल एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00129/106614/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मुरबाड इलेक्ट्रिकल एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बोरधरकर होम फायनांस एण्ड लिजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00145/106560/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बोरधरकर होम फायनांस एण्ड लिजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स प्रीमियर इलेक्ट्रो-गिल्डर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00454/106642/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रीमियर इलेक्ट्रो-गिल्डर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मनमाला रिक्रीएशनस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00157/106565/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मनमाला रिक्रीएशनस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अभि-ज्योति ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00132/106665/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अभि-ज्योति ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स प्रयानगना कॉरबोकेम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00422/106881/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रयानगना कॉरबोकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स विघ्नेश्वर ट्रांसवेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00445/106868/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विघ्नेश्वर ट्रांसवेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ब्रिज अलबेला एंजो एण्ड प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00450/106869/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्रिज अलबेला एंजो एण्ड प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जानरिना डेवलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00121/106918/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जानरिना डेवलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स परिमल फार्मस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00400/106924/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स परिमल फार्मस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ए. बी. वी. एक्जीम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00416/106970/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए. बी. वी. एक्जीम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बाणगंगा कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00311/106993/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बाणगंगा कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रताप फिसकल एण्ड  
सिक्विरिटीज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00242/107083/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रताप फिसकल एण्ड सिक्विरिटीज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स घानेकर इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00193/107013/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स घानेकर इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कैंब्रिज इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00232/107086/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कैंब्रिज इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिराज ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00385/107065/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिराज ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नेहा लिजिंग एण्ड फायनांस  
इनवेस्टमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00211/107100/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेहा लिजिंग एण्ड फायनांस इनवेस्टमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के. ए. पंडित एमप्लॉयी  
बेनीफिट्स कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00459/111601/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स के. ए. पंडित एमप्लॉयी बेनीफिट्स कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्रद्धा फ्लश डोर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00152/060938/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रद्धा फ्लश डोर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स तुलसाबाई पावर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00470/116540/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तुलसाबाई पावर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कैडीला वूड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00136/049897/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कैडीला वूड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अपना प्लाइवुड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00160/061854/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अपना प्लाइवुड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स योगेश्वर प्लाइवुड एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00129/049573/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स योगेश्वर प्लाइवुड एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बिंगो टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00118/047665/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बिंगो टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शिवोम प्लाई-एन-वूड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00065/046626/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिवोम प्लाई-एन-वूड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मेगा बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00107/047380/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेगा बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इन्टेग्रा प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00044/148715/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इन्टेग्रा प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स न्यू इरा प्लाईवूड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00069/046813/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स न्यू इरा प्लाईवूड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स लेमिनेट इनपुट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00040/123784/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लेमिनेट इनपुट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स माकरोस टीक ट्रेजर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00037/107236/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स माकरोस टीक ट्रेजर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मोनी (वूड प्रोडक्ट्स) इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00028/047269/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मोनी (वूड प्रोडक्ट्स) इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मल्का एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00034/048155/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मल्का एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गौरव प्लाईवूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00025/023907/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गौरव प्लाईवूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स टेक्सो टिम्बर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00031/047328/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टेक्सो टिम्बर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नेयोलक्स पैनल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00022/132147/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेयोलक्स पैनल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एशियन फ्लेवर एण्ड फ्रेगरेन्सेस बम्बई प्राईवेट लिमिटेड के विषय  
में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00016/017855/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एशियन फ्लेवर एण्ड फ्रेगरेन्सेस बम्बई प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कुमकुम प्रोपर्टी डेवलपमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00013/013370/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कुमकुम प्रोपर्टी डेवलपमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पोपलर वूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00006/119343/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पोपलर वूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जय भवानी एडेहसिव एण्ड कोटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00413/094470/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जय भवानी एडेहसिव एण्ड कोटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स खडिजा पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00408/056335/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स खडिजा पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नीलकंठ बोर्ड्स एण्ड पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00404/047874/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नीलकंठ बोर्ड्स एण्ड पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्री मराठवाडा पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00397/045398/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री मराठवाडा पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गुप्ता लेमिनेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00392/019231/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गुप्ता लेमिनेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ट्रम्फ प्रेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00381/016778/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ट्रम्फ प्रेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पी एण्ड जी कारपोरेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00374/113635/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पी एण्ड जी कारपोरेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्वेता म्युजिकल एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00361/134775/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्वेता म्युजिकल एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अपाला फाईन-केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00351/116430/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अपाला फाईन-केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स महामाने पैकर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00285/135140/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स महामाने पैकर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डी. पी. भोसले प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00253/011678/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डी. पी. भोसले प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इंटरको वूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00279/081011/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इंटरको वूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अपेक्स फर्नीचर कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00249/142183/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अपेक्स फर्नीचर कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इंडो-स्वेडिश पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00274/046218/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इंडो-स्वेडिश पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एस्सेल कंडक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00238/012618/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस्सेल कंडक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सनवुड वूल मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00341/115220/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनवुड वूल मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिफॉन टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई 400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00331/047664/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिफॉन टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वुडफन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00321/046429/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वुडफन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नव दुर्गा बांबू क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00313/143003/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नव दुर्गा बांबू क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नव टोन्स पैनल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00294/130678/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नव टोन्स पैनल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नवदुर्गा वुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00221/112514/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नवदुर्गा वुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्कायलार्क पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00214/085231/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्कायलार्क पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स युनो इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00228/106139/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स युनो इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्कायलार्क वुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00207/084494/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्कायलार्क वुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पंडा फैशन वेअर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00407/075159/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पंडा फैशन वेअर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्री श्रीप्लाई प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00201/132724/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री श्रीप्लाई प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शिव-शक्ति क्राफ्ट बोर्ड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00231/106758/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिव-शक्ति क्राफ्ट बोर्ड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ड्रेसवाला फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00187/058201/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ड्रेसवाला फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शा भूरमल अचलचंद एण्ड  
कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00208/059088/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शा भूरमल अचलचंद एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शानदार गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00202/058497/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शानदार गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अल्लेपी गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00320/059465/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अल्लेपी गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ब्लासम अपरिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00196/058208/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्लासम अपरिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वीर एंटरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00331/059526/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वीर एंटरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स समुद्र ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00335/061210/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स समुद्र ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स तारा ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00397/07450/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तारा ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स परसीआ अपारेल् फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00347/061872/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स परसीआ अपारेल् फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अल-जाझील फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00225/106107/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अल-जाझील फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कृपा अपारेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00373/063527/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कृपा अपारेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मनी होटल्स एण्ड प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00222/106093/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मनी होटल्स एण्ड प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुनेत्रा कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00218/106084/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुनेत्रा कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स करेक्टर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई 400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00209/106069/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स करेक्टर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स आीकाल सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00200/106055/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आीकाल सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिंघानिया इलेक्ट्रोवेल्ड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00194/106173/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिंघानिया इलेक्ट्रोवेल्ड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्वप्नस्पूती फाइनैसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00164/106008/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्वप्नस्पूती फाइनैसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जाधव कॉमर्शियल इंटेलिजेन्स एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00157/105987/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जाधव कॉमर्शियल इंटेलिजेन्स एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कडक्का सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00139/105974/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कडक्का सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गेट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16426/560(3)/एडीके/01(i)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गेट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पैरादिगम पॉली-प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00125/105959/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पैरादिगम पॉली-प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मोबसा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16420/560(3)/एडीके/02(i)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मोबसा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स दिशा रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 00111/105943/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दिशा रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्क्राय एक्सप्रेस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16466/560(3)/एडीके/03(i)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्क्राय एक्सप्रेस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गार्गी आईस टेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16460/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गार्गी आईस टेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स संस्कृति कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16360/560(3)/एडीके/05(i)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स संस्कृति कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सम्राट नमकीन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-16498/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सम्राट नमकीन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्वतंत्र नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-16488/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्वतंत्र नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पी एस बी मार्केटिंग बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-16475/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पी एस बी मार्केटिंग बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स विद्या इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-16489/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विद्या इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स क्लासिक प्लास्टर एण्ड एगो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16500/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्लासिक प्लास्टर एण्ड एगो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स होटल लक्ष्मण प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-18484/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स होटल लक्ष्मण प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ब्राइटस्टार पोलिमर्स (पुणे) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16443/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्राइटस्टार पोलिमर्स (पुणे) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्टरलिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16478/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्टरलिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स होम नेट सेल्स एण्ड मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16481/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स होम नेट सेल्स एण्ड मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गोपेश एगोवेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16473/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोपेश एगोवेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वन्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16467/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वन्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कम्प्युलाजिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16463/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कम्प्युलाजिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स तन्वी इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16461/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तन्वी इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साई मल्टी-लिंक मार्किटिंग बिजनेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16459/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साई मल्टी-लिंक मार्किटिंग बिजनेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शिल्प-विकास कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16454/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिल्प-विकास कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स समीर प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16446/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स समीर प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पृथ्वी शेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16445/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पृथ्वी शेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के सी लेजर एण्ड  
कोसमेटिक क्लीनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16436/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स के सी लेजर एण्ड कोसमेटिक क्लीनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेंटर फार इंटरनेशनल बिजनेस  
इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16440/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेंटर फार इंटरनेशनल बिजनेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मेडिक्सवर्न कॉम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16431/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेडिक्सवर्न कॉम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स आफरीन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16437/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आफरीन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इसोफ्ट बैंक टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16428/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इसोफ्ट बैंक टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कागल मार्केटिंग एण्ड ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16424/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कागल मार्केटिंग एण्ड ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इनफोटेक कॉल सेंटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16415/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इनफोटेक कॉल सेंटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बी. एम. जे. कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16414/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बी. एम. जे. कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स म्हाल्साकांत रियेलिटी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16407/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स म्हाल्साकांत रियेलिटी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स परस्यूअस इंजीनियर्स एण्ड  
कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16411/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स परस्यूअस इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मैक्सटेक्नो (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16403/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मैक्सटेक्नो (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स विश्वशक्ति स्टील्स एण्ड अलॉयस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16406/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विश्वशक्ति स्टील्स एण्ड अलॉयस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स टीमवर्क मल्टी चैनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16404/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टीमवर्क मल्टी चैनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स के. एस. बी. प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16409/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स के. एस. बी. प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स साइबरेम सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16394/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साइबरेम सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कलर शाईन सॉल्वेन्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16405/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कलर शाईन सॉल्वेन्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वरद इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16393/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वरद इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वयुक्ता डिजिटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16254/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वयुक्ता डिजिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पुणे कस्टमर्स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16540/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पुणे कस्टमर्स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इक्वीनेट ऑन-लाईन नेटवर्क मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16536/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इक्वीनेट ऑन-लाईन नेटवर्क मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स साईबाई कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16606/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साईबाई कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अभिनव एंग्रीटेक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16532/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अभिनव एंग्रीटेक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हि-क्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16526/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हि-क्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स माऊंटमेरू मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16533/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स माऊंटमेरू मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नक्षत्र इंफोरमेटिक्स टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16522/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नक्षत्र इंफोरमेटिक्स टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स विकासरत्न एंग्रो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16527/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विकासरत्न एंग्रो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स हॉपकिन्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16518/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हॉपकिन्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री स्वामी समर्थ सेल्स एण्ड  
मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16542/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री स्वामी समर्थ सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डायना एअर वैन्टीलेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16198/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डायना एअर वैन्टीलेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिल्वरनेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16239/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिल्वरनेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स आर. एन. पिल्लई इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16237/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर. एन. पिल्लई इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के. डी. मैन्युफैक्चरिंग एण्ड  
रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16231/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स के. डी. मैन्युफैक्चरिंग एण्ड रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स या-हू-का ऑटो ट्रेक  
मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16243/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स या-हू-का ऑटो ट्रेक मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री महालक्ष्मी ट्रेडिंग एण्ड एंग्रो  
एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16227/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री महालक्ष्मी ट्रेडिंग एण्ड एंग्रो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स लक्ष सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16214/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लक्ष सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स संभाजी नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16209/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स संभाजी नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स संधार बापना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16196/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स संधार बापना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्टार लाईन फर्नीचर्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16208/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्टार लाईन फर्नीचर्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डायनामिक मल्टी-लिंक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16190/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डायनामिक मल्टी-लिंक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स केम फ्लूक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16195/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स केम फ्लूक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स फोनटासे कूलटेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16189/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फोनटासे कूलटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वाइन्डवेल् इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16183/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वाइन्डवेल इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पारसनाथ पैकजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16185/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पारसनाथ पैकजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स समर्थ पैकजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

मं. आग.ओ.सी.पी./25-16186/560(3)/एडीके - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स समर्थ पैकजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्जित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधिवत फर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एस. डी. टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पूणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16180/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस. डी. टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अलिमिटेड टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16172/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अलिमिट्स टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स विसिटेक सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16163/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विसिटेक सॉफ्टवेयरस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मासूम चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16338/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मासूम चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मयूरेश कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17043/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मयूरेश कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्राजक्ता इलेक्ट्रीकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-63776/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्राजक्ता इलेक्ट्रीकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स प्रतिभा ऑनलाईन कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17041/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रतिभा ऑनलाईन कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नव चैतन्य विकास इंस्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17042/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नव चैतन्य विकास इंस्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इन्फोसर्च कम्प्यूटर टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17034/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इन्फोसर्च कम्प्यूटर टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ताहरिक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17032/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ताहरिक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रविस डेयरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17028/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रविस डेयरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स काकडे पाटिल एग्रो फार्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे 411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17030/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स काकडे पाटिल एग्रो फार्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जेड नेट एक्सपेंशन ट्रेड सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17026/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेड नेट एक्सपेंशन ट्रेड सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पैन हॉस्पिकॉन एण्ड हेल्थ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17022/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पैन हॉस्पिकॉन एण्ड हेल्थ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मेफेयर सी एण्ड एफ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17018/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेफेयर सी एण्ड एफ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स भवर्थ ऑटो पार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17017/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स भवर्थ ऑटो पार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शीना पेपर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16773/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शीना पेपर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डी. पी. कम्प्यूटर एजुकेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17014/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डी. पी. कम्प्यूटर एजुकेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राठोड़ एंथ्रोटेक टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16772/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राठोड़ एंथ्रोटेक टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्री चक्रधर पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17011/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री चक्रधर पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वैनतेया सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16763/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वैनतेया सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स त्रिदल सेफ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16759/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स त्रिदल सेफ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैमर्स पियर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25 16761/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैगस पियर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विर्यादत कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैमर्स अभ्यंकर फडतरे डेवलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ- 411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

मे. आर.ओ.सी.पी./25-16754/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स अभ्यंकर फडतरे डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मन स्कोप कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16749/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मून स्केप कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मन स्केप एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16747/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मून स्कोप एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कलस्यार टेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्णे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16742/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कलस्यार टेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स योगेश बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16729/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स योगेश बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सनचेति डेवलोपर्स एण्ड प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16720/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनचेति डेवलोपर्स एण्ड प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कालीमाता मर्चेन्डीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16727/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कालीमाता मर्चेन्डीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जायगोसेस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16722/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जायगोसेस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सातव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16725/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सातव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्री विठ्ठल केबल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16715/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री विठ्ठल केबल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स झुइस सॉफ्टवेयर एण्ड क्रेडिट  
मोनिटोरिंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16714/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स झुइस सॉफ्टवेयर एण्ड क्रेडिट मोनिटोरिंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स दाले नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16717/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दाले नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्वयंम् मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे 411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16713/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्वयंम् मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नादाफ इंटरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16703/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नादाफ इंटरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शिवसाई इन्फोसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16708/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिवसाई इन्फोसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डूरो ऑटो एसेसेरिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16699/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डूरो ऑटो एसेसेरिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अहिल्या पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16690/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अहिल्या पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डिजिटारिक्स इन्फोमोडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16688/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डिजिटारिक्स इन्फोमोडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कैप्रीने एंजोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16683/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कैप्रीने एंजोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स संभव केबल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16166/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स संभव केबल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शिवशांति कन्सट्रक्शनस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16691/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिवशांति कन्सट्रक्शनस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स क्यूसेरा टेलेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16769/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्यूसेरा टेलेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अक्षय प्रेसिकॉन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-94858/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अक्षय प्रेसिकॉन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स होटल रोशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-94939/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स होटल रोशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स राबर्ट ब्रश मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-94875/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राबर्ट ब्रश मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रूद्राम इमेज प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-96873/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रूद्राम इमेज प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्टेनवार्ट्स एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-94927/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्टेनवार्ट्स एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डी. जे. आर. होटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-96508/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डी. जे. आर. होटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बॉडी माईड एण्ड सॉल  
इंटरनेशनल हेल्थ रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-96443/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बॉडी माईड एण्ड सॉल इंटरनेशनल हेल्थ रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अमडाले टूल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-96448/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अमडाले टूल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरशिया मेडी-मार्क  
कन्सोरटियम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-96385/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अरशिया मेडी-मार्क कन्सोरटियम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वैल ट्रेक सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-95982/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वैल ट्रेक सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जॉइन्ट रिसर्च सिस्टम्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-95397/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जॉइन्ट रिसर्च सिस्टम्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मॉर्डन कन्फैक्शनरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./एमएच-95542/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मॉर्डन कन्फैक्शनरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पूना पंचगंगा स्टील रिलीजिंग  
मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-95357/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पूना पंचगंगा स्टील रिलीजिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ए. बी. मोहिते कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-95254/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए. बी. मोहिते कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स राजदीप ब्लोअर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-95250/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राजदीप ब्लोअर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स प्लाईमेक लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-96398/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्लाईमेक लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नाम राता प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-95712/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नाम राता प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सेफलॉन प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-96162/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेफलॉन प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रोटरी प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-95678/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रोटरी प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्री लक्ष्मी शुगरकेन प्रोसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-96603/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री लक्ष्मी शुगरकेन प्रोसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. पां. काटकर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सैकोन एन्टीबैयोटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 15 अप्रैल 2008

सं. 560(3)/एम सी ए/आर ओ सी/एरनाकुलम/560/2008/00310--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सैकोन एन्टीबैयोटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. अमिरुल मिल्लथ  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के  
विषय में।

कटक-753001, दिनांक 2 अप्रैल 2008

सं. आर.ओ.सी./560(3)/20--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह सभी कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

क्रम सं	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1.	15-003208	मैसर्स विजुअल लिंक प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-004227	मैसर्स गणपति आयरन एण्ड स्टील कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

बि. मोहन्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के  
विषय में।

कटक-753001, दिनांक 17 अप्रैल 2008

सं. आर.ओ.सी./एम ई एस/187--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1.	15-003824	मैसर्स माँ सरला स्टोन प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-005794	मैसर्स महिमा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-003460	मैसर्स बालासोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड
4.	15-006698	मैसर्स होटल बारबाती लिमिटेड

बि. मोहन्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 21 अप्रैल 2008

सं. आर.ओ.सी.बी/560(3)/टीए/जेके/एमएस--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गये तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह सभी कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

क्रम सं. कम्पनी नं. कम्पनी का नाम

1	2	3
1.	34799	मैसर्स दिया फिल्म मेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	32543	मैसर्स दिया एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
3.	20811	मैसर्स प्रेमसाई इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	16538	मैसर्स सी-शोर पावर बैटरीज प्राईवेट लिमिटेड
5.	14221	मैसर्स रिएक्टिव मैटेरियल्स लिमिटेड
6.	16322	मैसर्स अंगडी साइंटिफिक फार्म्स एंड रिसोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड
7.	14000	मैसर्स धन फायनेन्स सर्विसेस लिमिटेड
8.	13958	मैसर्स केनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
9.	16779	मैसर्स मास्ति एयरवेस लिमिटेड
10.	16524	मैसर्स नवीन वायनाईब एग्रो-टेक लिमिटेड
11.	14012	मैसर्स वेलवेट (इंडिया) कन्सट्रक्शन्स लिमिटेड
12.	16448	मैसर्स मिस्ट्री हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड
13.	16353	मैसर्स सोहम शुगरकेन प्रोसेसर्स लिमिटेड

1	2	3
14.	16347	मैसर्स मिठा मस्क लिमिटेड
15.	16712	मैसर्स एक्विन फूड सेण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड
16.	23950	मैसर्स एड्रोईट होटल्स लिमिटेड
17.	22787	मैसर्स एस्टेट कॉफी प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	23578	मैसर्स सिग्नेचर हायर पर्चेस एण्ड लिजिंग लिमिटेड
19.	22315	मैसर्स सत्य साई इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड
20.	22702	मैसर्स श्री कामधेनु ग्रीन फारेस्ट लिमिटेड
21.	22219	मैसर्स जनछाया एग्रो इस्टेट्स लिमिटेड
22.	22397	मैसर्स शामसुंदर ट्रेडिंग लिमिटेड
23.	23254	मैसर्स सुप्रीम बायोटेक लिमिटेड
24.	22892	मैसर्स साफ्टेक हायर एक्सप्लोरर लिमिटेड
25.	22512	मैसर्स साउथ स्टार एक्सपोर्ट लिमिटेड
26.	23698	मैसर्स सनकोर साफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर लिमिटेड
27.	23422	मैसर्स व्यथ्रिक इंफोटेक लिमिटेड
28.	23755	मैसर्स मेप कर्माशियल क्रियेटिक्स लिमिटेड
29.	23910	मैसर्स सिटी टो थाउसैंड (इंडिया) लिमिटेड
30.	16283	मैसर्स युनाइटेड फ्लोरिकल्चर इंडिया लिमिटेड
31.	16536	मैसर्स सनलाईन शॉक्स लिमिटेड

ए. एम. श्रीधरन  
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 9th April 2008

No. A-60011/8/2005-RTI Cell (Admn.)—In partial modification of Notification dated 9th April, 2007 and in terms of Section 19 of the Right to Information Act, 2005, Shri R. K. Sinha, JS (S-1A) is designated as Appellate Authority in place of Shri K. M. Shahid, JS for the subject as detailed below :—

Name of the Appellate Authority	Subject matter	Telephone No.	Name of the concerned CPIO
Shri R. K. Sinha, JS (S-1A)	All matters pertaining to disciplinary cases (referred to the Commission) involving major penalty	23070813	Shri Bachchan Kujur, DS (S-1 Coordination)

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 11th April 2008

No. DP/Pers II/2008/1075/A-34012/7/2005—Shri S. P. Narula, relinquished the charge of the post of Private Secretary, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.03.2008 on attaining the age of superannuation.

M. SACHDEV  
Administrative Officer (Pers.)

No. DP/Pers II/2008/1076/A-34012/7/2005—Shri Z. Joseph, relinquished the charge of the post of Private Secretary, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.03.2008 on attaining the age of superannuation.

M. SACHDEV  
Administrative Officer (Pers.)

The 15th April 2008

No. DP/Pers. I/2008/78/3/14/2008—The President is pleased to appoint Sh. Ram Kishen as Administrative Officer in Central Bureau of Investigation on his promotion to the Grade I (Under Secy.) of CSS, on purely ad hoc basis, from the afternoon of 31st April, 2008 and until further orders.

The ad hoc promotion of Sh. Ram Kishen to the Grade I (Under Secy.) of CSS is subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M. A. No. 2170/2006, O. A. No. 2793/2005, M. A. No. 2710/2005.

M. SACHDEV  
Administrative Officer (Pers.)

The 17th April 2008

## CORRIGENDUM

No. DP/Pers. I/2008/0081/3/14/2008—The date of joining of Sh. Ram Kishen as Admn. Officer in Central Bureau of Investigation appearing in the third line of Para I of Notification No. DP/Pers. I/2008/78/3/14/2008 dated 15.04.2008 may be read as 31st March, 2008 instead of 31st April, 2008.

M. SACHDEV  
Administrative Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE

New Delhi-110 003, the 9th April 2008

No. 33/4/2005-Adm. (FS)—The President is pleased to appoint Shri Mohinder Singh, Deputy Government Examiner of Questioned Documents as Government Examiner of Questioned Documents in the office of Government Examiner of Questioned Documents, Hyderabad under the Directorate of Forensic Science, Ministry of Home Affairs on promotion with effect from 01.04.2008 in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-.

Dr. M. S. RAO  
Director (F. S.)

## DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 10th April 2008

No. O. II. 4242/08-PF-Pers.-1—Consequent on acceptance of his notice dated 19.06.2007 for resignation from Government service by the competent authority, Shri T. N. Sahay, Dy. Commandant (IRLA-4242) of GC Imphal (on deputation with NSG), has relinquished his post on 07.09.2007 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 07.09.2007 (FN).

RANJIT SINGH  
Addl. DIGP (Pers-I)

New Delhi-110 003, the 15th April 2008

No. P. III-2/2008-Pers.-3—Consequent on his retirement from Government service on attaining the age of Superannuation, Shri E. V. Vijayan (IRLA-7253) of O/o DIGP, CRPF, New Delhi, has relinquished charge of the post of Administrative Officer in the afternoon of 31.03.2008.

K. K. SIVA PRASAD  
Addl. DIGP (Pers.-III)

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 003, the 21st April 2008

No. E-28017/1/Noti/2008/Pers.-II/803—Consequent upon voluntary retirement under Rule-48A of CCS (Pension) Rules,

1972/and retirement from Govt. Service on attaining the age of superannuation, following officers had relinquished the charge of the post from the date and Unit as shown against each :-

Sl. No.	Name	Post held	Date	Unit
	S/Shri			
01.	Swaraj Kumar Mukherjee (Superannuation)	Deputy Commandant	31.03.2008	CISF NDRF BN, Mundali
02.	V. M. Rajagopal (Superannuation)	Assistant Commandant	31.03.2008	CISF, ASG Coimbatore
03.	K. Ashok (Voluntary)	Assistant Commandant/ Fire	14.03.2008	CISF Unit, NPM, Jagiroad, Assam

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

MINISTRY OF FINANCE  
BANK NOTE PRESS  
(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING  
CORPORATION OF INDIA LIMITED)

Dewas, the 9th April 2008

No. BNP/C/44/98-I - Shri A. Xalxo (ST), Inspector Control is promoted to the post of Deputy Control Officer (Group-B Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on ad hoc basis for a period from 04.04.2008 to 03.12.2008.

D. V. GONDNALE  
General Manager

No. BNP/C/44/98-I—Shri K. R. Dohare (SC), Inspector Control is promoted to the post of Deputy Control Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (Group-B) w.e.f. 04.04.2008 on regular basis until further orders.

D. V. GONDNALE  
General Manager

No. BNP/C/44/98-I—The period of ad hoc promotion granted to Shri K. L. Gorya vide Notification dated 21.08.2007 is extended further from 01.03.2008 to 31.08.2008 on the same terms and conditions.

D. V. GONDNALE  
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(AUDIT), KERALA

Thiruvananthapuram, the 16th April 2008

No. Au. Admn. III/9-I/Vol. II/4 - The following Audit Officers have been promoted as Senior Audit Officers in the

scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the date indicated against each :-

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
	S/Shri/Smt.	
1.	P. Krishnan Nair (No. 3)	01.01.2007
2.	E. Ramaiah	01.01.2007
3.	S. R. Baburaj	01.01.2007
4.	P. Sivadsan (No. 2)	01.01.2007
5.	S. Naveenkumar	01.01.2007
6.	S. Somasekharan Nair	01.01.2007
7.	C. S. Sadanandan	01.01.2007
8.	K. Raveendran	01.01.2007
9.	K. V. Dinamoni	01.01.2007
10.	Philip Thomas	01.01.2007
11.	K. P. Kesavan Nair	01.01.2007
12.	A. Manuel	01.01.2007
13.	O. V. Cicily	01.01.2007
14.	M. T. Antony	01.01.2007
15.	K. Abdul Latheef	01.01.2007
16.	K. A. Kuriakose	01.01.2007
17.	N. Sreedharan Nampoothiri	01.01.2007
18.	P. Gopinathan Nair	01.01.2007
19.	M. Ramabhadran Pillai	01.01.2007
20.	V. J. Joseph (No. 3)	01.01.2007

P. UNNIKRISHNAN  
Dy. Accountant General/Admn.

No. Au. Admn. III/9-I/Vol. II—The following Section Officers have been promoted as Asstt. Audit Officers in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the date indicated against each :-

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
1	2	3
	S/Shri/Smt.	
1.	R. Sreekumari	01.01.2007
2.	M. S. Rajalekshmi	01.01.2007

1	2	3
	S/Shri/Smt.	
3.	V. Nandakumar	01.01.2007
4.	Lovely Joseph	01.01.2007
5.	V. Venukumar	01.01.2007
6.	N. J. Thomas	01.01.2007
7.	K. Vijayashree	01.01.2007
8.	P. M. Nirmal	01.01.2007
9.	P. Ajith	01.01.2007
10.	K. M. Muralikrishnan	01.01.2007
11.	B. Premachandran Nair	01.01.2007
12.	L. Parvathy Sekhar	01.01.2007
13.	Emanuel George	01.01.2007
14.	P. B. Latha	01.01.2007
15.	P. Geetha	01.01.2007
16.	P. Jolly Cyriac	01.01.2007
17.	G. Mercy	01.01.2007
18.	P. V. Susheela	01.01.2007
19.	K. Muralidharan	01.01.2007
20.	K. Easwaran Namboothiri	01.01.2007
21.	G. Subhadra Devi	01.01.2007
22.	P. V. Chandran	01.01.2007
23.	M. D. Josimon	01.01.2007
24.	S. Ramachandran Nair	01.01.2007
25.	V. S. Sunil	01.01.2007
26.	Sheeja Thomas	01.01.2007
27.	Marys Oommen	01.01.2007
28.	Subbalakshmy	01.01.2007

P. UNNIKRISHNAN  
Dy. Accountant General/Admn.

No. Au. Admn. II/9-1/Vol. II—The following Asstt. Audit Officers have been promoted as Audit Officers in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
1	2	3
	S/Shri/Smt.	
1.	B. S. Basanthakumari	03.07.2006
2.	K. K. Udayan	03.07.2006

1	2	3
	S/Shri/Smt.	
3.	K. Surendran (No. 2)	03.07.2006
4.	T. Amala	03.07.2006
5.	K. A. Devassy	01.08.2006
6.	P. K. Raveendran (No. 2)	01.08.2008
7.	V. S. Hameed	01.09.2006
8.	M. K. Thulasi Bai	12.10.2006
9.	T. K. Joseph	12.10.2006
10.	S. P. N. Vishnu Nampoothiri	12.10.2006
11.	Antony Joseph	01.11.2006
12.	Philip K. K. Kurien	01.02.2007
13.	N. Ramanatha Iyer	01.02.2007
14.	M. S. Joseph	01.02.2007
15.	Daisy Jacob	01.02.2007
16.	K. N. Rajagopalan Nair	01.02.2007
17.	K. P. Philip	01.03.2007
18.	P. G. Prathapan	01.03.2007
19.	R. Purushothaman Pillai	01.03.2007
20.	J. Sucheta	01.03.2007
21.	T. Sukumara Pillai	01.05.2007
22.	K. Kunhabdulla	01.05.2007
23.	T. P. Manoharan	01.05.2007
24.	Manjurani Nair	01.05.2007
25.	B. C. Parameswaran Nair	01.06.2007
26.	G. Venugopal	04.06.2007

P. UNNIKRISHNAN  
Dy. Accountant General/Admn.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
KERALA

Thiruvananthapuram, the 10th April 2008

No. O. E/E&C/EIVP/5—The following officials of IA&AD retired from service:

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. K. A. Aleykutty	Sr. Accounts Officer, Main Office, Trivandrum	31.03.2008 AN (Super-annuation)
2.	Smt. L. Retnakumary	Asstt. Accounts Officer, Main Office, Trivandrum	31.03.2008 AN (Super-annuation)

Sd/- ILLEGIBLE

Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(CIVIL AUDIT), ORISSA

Bhubaneswar, the 17th April 2008

No. Admn. (CA)-3-1-1/Vol. VI/145—In pursuance of this Office Order No. 1373 dated 26.03.2008 communicated vide Memo No. Admn (CA)-3-1-1/Vol. VI/2757 dated 26.03.2008, the following Section Officers on their promotion, have assumed charge as Assistant Audit Officer in the Scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the dates noted against each.

Sl. No.	Name of the Official	Date of joining
	S/Shri	
1.	Ms. Jyostna Dhal	26.03.2008 (FN)
2.	Bibhuti Bhusan Patra	26.03.2008 (FN)
3.	Bijay Kumar Praharaj	26.03.2008 (FN)
4.	Prakash Chandra Sabat	26.03.2008 (FN)

R. K. DAS  
Audit Officer/Admn.

## GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-16, the 11th April 2008

No. 675/B/A-32013/2-Dir. (Geophy.)/2007-08/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to approve the appointment of the following Geophysicist (Sr.) in Geological Survey of India as Director (Geophysics) on promotion in G. S. I. on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular basis with effect from the date as mentioned against each until further orders :

Sl. No.	Name of the Officer	Place of Posting	Date of promotion
1	2	3	4
1.	Dr. Dinesh Gupta	WR, Jaipur	04.12.2007 (AN)
2.	Sri Dilip Kumar Saha	C.G.D., Kolkata	04.12.2007 (AN)

1	2	3	4
3.	Shri S. Siddaiah	AMSE Wing, Bangalore	04.12.2007 (AN)
4.	Shri Ch. V. V. Satyanarayana Murthy	AMSE Wing, Bangalore	01.01.2008 (FN)
5.	Shri M. S. Venkataramani	OP : TNP&K, SR, Chennai-90	01.01.2008 (FN)
6.	Shri G. Jawahar	SR, Hyderabad	25.01.2008 (FN)
7.	Shri B. Satyanarayana	Op : EC-II, Marine Wing, Visakhapatnam-530 017	01.02.2008 (FN)

KARTIKEYA VERMA

Admin. Officer Gr. I  
for Director General

The 15th April 2008

## CORRIGENDUM

No. 1168A/A-32013/3-Asstt. Chem./99/19B.—In partial modification of this office Notification No. 3708/B to 3739/B/A-32013/3-Asstt. Chem/99/19B dated 13.12.2007, the date of joining of Shri Suresh Ch. Prasad in the grade of Assitant Chemist Grade-I may be read as 06.08.2007 (AN) instead of 02.08.2007 (AN) and the date of joining of Smt. Tulsi Dharam Shaktu in the grade of Asstt. Chemist Grade-I may be read as 06.08.2007 (AN) instead of 06.08.2007 (FN). The other contents will remain unchanged.

KARTIKEYA VERMA

Admin. Officer, Grade I  
for Director General

No. 1167A/A-32013/2-Geophy. (Jr.)/2007-08/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to approve the appointment of the following Assistant Geophysicist Grade-I in Geological Survey of India as Geophysicist (Jr.) on promotion in G.S.I. on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis with effect from the date mentioned against each until further orders.

Sl. No.	Name of the Officer	Date of promotion
1	2	3
1.	Shri G. S. R. Uma Sankar	31.01.2008 (AN)
2.	Shri H. Channabasanagouda	31.01.2008 (AN)

1	2	3
3.	Dr. Raj Kishore Singh	31.01.2008 (AN)
4.	Dr. S. Srinivas	01.02.2008 (FN)
5.	Shri H. Rajaram	31.01.2008 (AN)

KARTIKEYA VERMA  
Admin. Officer Gr.-I  
for Director General

Kolkata-700 016, the 14th February 2008

No. 310/B/A-19011 (6-SC)/2007-19A—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Sujata Chakraborty to the post of Mineralogist (Sr.) (Group—'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in a temporary capacity with effect from forenoon of 01.01.2008 until further orders.

D. T. SYIEMLEIH  
Director (P & A)  
for Director General

The 15th April 2008

No. 1078C/A-19011 (6-DR)/2007-19A—The President is pleased to appoint Mrs. Deepthy R. to the post of Mineralogist (Jr.) (Group—'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 27.02.2008 until further orders.

D. T. SYIEMLEIH  
Director (P & A)  
for Director General

No. 1077C/A-32013/P.S./2006/19A—On the recommendation of Departmental Promotion Committee the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint the following Stenographer Grade I (Group 'B' Non-gazetted) to the post of Private Secretary (Group 'B' Gazetted) on promotion in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in an officiating capacity with effect from the date shown against each until further orders :

Sl. No.	Name of the Officer	Date of joining
1.	Shri K. Krishna Prabhu	27.12.2007 (FN)
2.	Shri F. B. Pinto	26.12.2007 (AN)

D. T. SYIEMLEIH  
Director (P & A)  
for Director General

The 22nd April 2008

No. 1140 SP/A-32013/Sr. DDG (S&TSS)/2005/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Dr. P. N. Razdan, Deputy Director General (Geo-Chem.), Geological Survey of India on promotion to the post of Senior Deputy Director General (Scientific & Technical Support Services) in the same department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from 28.02.2008 (A. N.) until further orders.

D. T. SYIEMLEIH  
Director (P & A)  
for Director General

Kolkata-700 016, the 11th April 2008

No. 673/B/A-19011 (6-AR)/2007-19A—The President is pleased to appoint Shri Anand R. to the post of Mineralogist (Jr.) (Group—'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 18.02.2008 until further orders.

B. M. GALAV  
Sr. Admin. Officer  
for Director General

#### ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 15th April 2008

No. 10/1/2000/M—In exercise of the powers conferred under Rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I. C. Dorjee, Director (Monuments) hereby direct that no entry fee shall be charged at the Centrally Protected Monuments specified in the Second Schedule of the Ancient Monuments Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 on 18th April, 2008 on the occasion of World Heritage Day celebration.

C. DORJEE  
Director (Monument)  
for Director General

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 8th April 2008

No. 6-1/2006-BP-II (Accommodation)—The Central Vigilance Committee under Justice D. P. Wadhwa was constituted in pursuance of the Supreme Court Orders dated 12.7.2006 in the matter of Writ Petition (Civil) No. 196 of 2001 PUCL versus Union of India to go into the maladies which are affecting the proper functioning of Public Distribution System (PDS) vide notification of even number dated 1.12.2006. The tenure of the Central Vigilance Committee was

extended upto 31.8.2007 as per directions of Supreme Court vide notification of even number 8.5.2007.

The Committee submitted its report to Supreme Court on 21.8.2007.

The tenure of the Central Vigilance Committee was further extended for six months w.e.f. 11.1.2008 vide Supreme Court order dated 10.1.2008. Now, therefore as the Supreme Court vide its order dated 31.3.2008 has directed, the intervening period w.e.f. 1.09.2007 to 10.01.2008 is treated as the extended period of the Central Vigilance Committee.

Dr. BHAGWAN SAHAI  
Jt. Secy.

#### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400 085, the 16th April 2008

No. 93/Noti./IA Est. IA/40688—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sl. No.	Name of the Officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
1	2	3	4	5
1	Dr. (Smt.) Kanchan Kothari	SO/G	03.03.2008 (FN)	Voluntary Retirement
2	Shri Sana Matthew	SO/C	05.03.2008 (AN)	Resignation
3	Shri Sudip Ray	SO/E	05.03.2008 (AN)	Resignation
4	Smt. Shalaka S. Pitale	SO/D	07.03.2008 (AN)	Resignation
5	Shri Rajeev Sahu	SO/D	11.03.2008 (AN)	Resignation
6	Shri B. Sambasiva Rao	SD/F	13.03.2008 (FN)	Voluntary Retirement
7	Shri Paikaj Mishra	SD/D	14.03.2008 (AN)	Resignation
8	Dr. K. P. Sudheer	SO/C	14.03.2008 (AN)	Technical Resignation
9	Shri S. K. Jari	SO/H	31.03.2008 (AN)	Super-annuation
10	Shri K. Samrakshar	SO/F	31.03.2008 (AN)	Super-annuation
11	Shri P. D. Mithapara	SO/C	31.03.2008 (AN)	Super-annuation
12	Dr. K. S. S. K. Rao	SO/H	31.03.2008 (AN)	Super-annuation

1	2	3	4	5
13.	Shri Shiv Kumar Tangri	SO/H	31.03.2008 (AN)	Super-annuation
14.	Shri Gopal Pamandas Shahdadpuri	SO/F	31.03.2008 (AN)	Super-annuation
15.	Dr. (Smt.) Shobha Vijaykumar Patkar	SO/H	31.03.2008 (AN)	Super-annuation
16.	Shri Abraham Varughese	SO/F	31.03.2008 (AN)	Super-annuation
17.	Shri Dattu Shankar Deshingkar	SO/H	31.03.2008 (AN)	Super-annuation

N. D. SHARMA  
Controller

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700 064, the 11th December 2007

No. VECC/Prom (Aug)/2007—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer/F in the Scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from 1st August, 2007 (FN) until further orders :—

Sl. No.	Name	Present Post	Scale of pay (Rs.)
1.	Shri M. K. Chakraborty	Scientific Officer (E)	12,000-375-16,500/-
2.	Shri R. N. Sharma	Scientific Officer (E)	12,000-375-16,500/-
3.	Shri A. K. Mukherjee	Scientific Officer (E)	12,000-375-16,500/-
4.	Shri S. Ramanarayan	Scientific Officer (E)	12,000-375-16,500/-
5.	Dr. (Smt.) P. Das	Scientific Officer (E)	12,000-375-16,500/-
6.	Shri A. Dutta Gupta	Scientific Officer (E)	12,000-375-16,500/-
7.	Shri Bidhan Ch. Mondal	Scientific Officer (E)	12,000-375-16,500/-

S. B. BOSE  
Administrative Officer-III

#### INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603 102, the 5th April 2008

No. IGCAR/A-11013/2008-R/387—The President is pleased to appoint the undermentioned officer in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade "C" on an



initial pay of Rs. 9,100/- in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 1st September 2007 until further orders :—

Sl. No.	IC No./Divn.	Name
1.	6653/MHD/NEG	Shri Juby Abraham

V. DAYALAN  
Chief Administrative Officer

No. IGCAR/A-11013/2008-R/387—The President is pleased to appoint the undermentioned officers in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade "C" on the initial pay of Rs. 9,375/- in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 1st September 2007 until further orders :—

Sl. No.	IC No./Divn.	Name
1.	6652/SG	S/Shri/Kum. Niharika Soni
2.	6654/SSS/MSD	P. Syamala Rao

V. DAYALAN  
Chief Administrative Officer

The 9th April 2008

No. IGC/PF/6621/2008-R—President is pleased to appoint Dr. R. Ramaseshan in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'E' on an initial pay of Rs. 12,375/- in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 28.06.2007 in a temporary capacity until further orders.

V. DAYALAN  
Chief Administrative Officer

MINISTRY OF WATER RESOURCES  
CENTRAL GROUND WATER BOARD

NH-IV, Faridabad, the 9th April 2008

No. 8-20/2006-Engg. Estt. 1427—On the recommendation of the DPC (Group 'B', Gazetted), the following officers have been promoted to the post of Assistant Engineer, Group 'B' (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- per month plus usual allowances applicable thereon in the temporary capacity from the date shown as under :—

Sl. No.	Name of Officers	Place of posting	Date of joining
1	2	3	4
1.	Sh. A. L. Jawa	CHQ, Faridabad	09.01.08
2.	Sh. C. R. Chahilya	CHQ, Faridabad	31.01.08

1	2	3	4
3.	Sh. P. Natarajan	Div. XIV, Banalore	14.01.08
4.	Sh. M. Gnanasekaran	Div. IV, Chennai	14.01.08
5.	Sh. S. T. Narsimhulu	Div. IX, Hyderabad	10.01.08

They will be on probation for a period of two years from the date of their joining which can be extended by the Competent Authority at his discretion, if considered necessary.

S. K. SINHA  
Director Administration

No. 8-20/2006-Engg. Estt. 1614—On the recommendation of the DPC (Group 'B', Gazetted), the following officers have been promoted to the post of Driller-in-Charge, Group 'B' (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- per month plus usual allowances applicable thereon in the temporary capacity from the date shown as under :—

Sl. No.	Name of Officers	Place of posting	Date of joining
1.	Sh. D. N. Yadav	Div. XVII, Dharmshala	02.11.07
2.	Sh. T. Shivramain	Div. IX, Hyderabad	21.01.08
3.	Sh. Sheikh Sabbir Ali	Div. IX, Hyderabad	17.01.08
4.	Sh. Keshar Dev	Div. VI, Nagpur	28.11.07
5.	Sh. Janak Lal Ewanti	Div. VI, Nagpur	08.11.07

They will be on probation for a period of two years from the date of their joining which can be extended by the Competent Authority at his discretion, if considered necessary.

S. K. SINHA  
Director Administration

The 21st April 2008

No. 3-1446/03-Min. Estt. 2330—On the recommendation of the DPC (Group-B), Gazetted, the following officers have been promoted to the posts of Administrative Officers, (Group-B) (GCS Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in Central Ground Water Board on temporary basis with effect from the forenoon of the dates as mentioned against their names :

Sl. No.	Name	Date of joining to the promotional post
1	2	3
1.	Smt. Chinnamma K. C.	04.02.08
2.	Sh. S. Ananda Rao	31.01.08

1	2	3
3.	Sh. Prosenjit Ray	21.01.08
4.	Smt. Saramma Thomas	15.02.08
5.	Sh. V. S. Mathur	25.01.08

They will be on probation for a period of two years with effect from the dates mentioned against their names, which can be extended up by the Competent Authority at his discretion, if considered necessary.

S. K. SINHA  
Director Administration

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samaratha Sales Private Limited

Jaipur, the 10th April 2008

No. ROC/JPR/560/4504/453—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Samaratha Sales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

R. C. MISHRA  
Asstt. Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Radha Govind Marketing Private Limited

Jaipur, the 16th April 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Jaipur/Sec. 560/2008/00121/457—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Radha Govind Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

R. C. MISHRA  
Asstt. Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. Kumar and Company Private Limited

Jaipur, the 16th April 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Jaipur/Sec. 560/2008/00094/461—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. K. Kumar and Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

R. C. MISHRA  
Asstt. Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. An Education Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00052—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. An Education Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

ELSY PAPPACHAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Probus Organic Plantations Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00287—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Probus Organic Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Internexus Networks Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00123—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Internexus Networks Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Professional Motors India Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00586—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Professional Motors India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. A'la Mode Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00086—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. A'la Mode Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lal Chand Siroomal Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00407—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Lal Chand Siroomal Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Infonet Cyber Cafe Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00513—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Infonet Cyber Cafe Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. V and V Comptech Systems Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00361—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. V and V Comptech Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saikriipa Developers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00096—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Saikriipa Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. La Familli Hotels and Resorts Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00375—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. La Familli Hotels and Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Abhijat Technocrats Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00445—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Abhijat Technocrats Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Madhur Valves and Loader Private Limited

Mumbai 400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00006—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Madhur Valves and Loader Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. GHD-Macknight and Sheorey Projects  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00984—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. GHD-Macknight and Sheorey Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dove Financial Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00367—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Dove Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sterile Agri and Investment Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00181—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sterile Agri and Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chopra Computer Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00484—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Chopra Computer Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gemini Aqua Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00176—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Gemini Aqua Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Polaris Agrotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00170—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Polaris Agrotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Praman Securities and Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00093—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Praman Securities and Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. PPH Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00122—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. PPH Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Raj Kishore Fin-Lease Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00102—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Raj Kishore Fin-Lease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajhans Developers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00127—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Rajhans Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashish Home Makers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00080—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ashish Home Makers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Roma Forex Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00008—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Roma Forex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Salvi Builders Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00251—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Salvi Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Leroy Hotels Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00260—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Leroy Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vrushali Sale and Services (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00022—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vrushali Sale and Services (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Syndicate Tobacco Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00245—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Syndicate Tobacco Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Konkan Greenfield and Developers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00319—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Konkan Greenfield and Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nasik Agro Plantations Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00307—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nasik Agro Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashraj Food Specialities Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00301—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ashraj Food Specialities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bloom Floriculture Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00293—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bloom Floriculture Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ferme Verte Agro-Tech Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00281—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ferme Verte Agro-Tech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. 3Ahara Agro and Goat Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00436—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. 3Ahara Agro and Goat Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amelia Resorts and Plantations Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00428—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Amelia Resorts and Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vanjivan Plantation Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00421—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vanjivan Plantation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunrise Agrotech and Investments Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00412—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sunrise Agrotech and Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tulsi Agro Food Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00401—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Tulsi Agro Food Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Skylark Agro Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00384—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Skylark Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jiten Agro Land and Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00349—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jiten Agro Land and Farm Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Surface Agrofine Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00340—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Surface Agrofine Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ramsharan Agro Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00335—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Ramsharan Agro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bisani Agrotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00326—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bisani Agrotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saipenta Plantations Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00058—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Saipenta Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Harik Aqua Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00053—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Harik Aqua Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shangrilla Hills and Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00047—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shangrilla Hills and Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mogal Agro Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00041—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mogal Agro Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ankur Agrohort Plantations Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00030—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ankur Agrohort Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dondaiche Farm Products and Exports  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00026—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Dondaiche Farm Products and Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chhaya Agro Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00019—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Chhaya Agro Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Garden Wafers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00015—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Garden Wafers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Govardhan Envirotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00012—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Govardhan Envirotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rudraksh Aqua Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00008—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Rudraksh Aqua Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ombharti Agrobased Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00204—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ombharti Agrobased Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. South India Agro Farms Development Company  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00199—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. South India Agro Farms Development Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Horizon Agricom Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00195—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Horizon Agricom Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mid Town Agro Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00186—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mid Town Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Palval Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00183—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Palval Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Parseoni Taluka Agro Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/000180—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Parseoni Taluka Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Afman Aquafarms Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00174—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Afman Aquafarms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Swanni Agro Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00171—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Swanni Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Akhil Biotech Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00167—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Akhil Biotech Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Natraj Resins and Adhesives Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00257—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Natraj Resins and Adhesives Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Symphony Printers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00264—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Symphony Printers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rahul Paper Mill Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00204—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Rahul Paper Mill Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. U K Paper Mart Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00107—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. U K Paper Mart Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Impress Paper Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00183—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Impress Paper Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Master Forms Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00192—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Master Forms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Total Express (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00576—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Total Express (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Leekrats Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00562—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Leekrats Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jetage Papers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00546—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jetage Papers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajee Paper Boards Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00528—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Rajee Paper Boards Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jayraj Packaging Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00518—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jayraj Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ranjana Paper Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00169—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ranjana Paper Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunrock Papier Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00177—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sunrock Papier Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wadia Patel Associates Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00608—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Wadia Patel Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Emotech Paper Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00595—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Emotech Paper Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vista Boards and Paper Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00011—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vista Boards and Paper Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vaidyanath Papers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00024—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vaidyanath Papers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aneeshaa Paper and Agro Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00033—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Aneeshaa Paper and Agro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Raj Pulp and Papers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00040—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Raj Pulp and Papers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hero Paper Company Private Limited

Mumbai 400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00123—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Hero Paper Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sudarshan Poly Films Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00132—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sudarshan Poly Films Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shradha Papers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00140—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Shradha Papers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Axiom Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00148—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Axiom Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Janus International Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00208—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Janus International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Palm Grove Paper Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00151—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Palm Grove Paper Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mehadia Cone Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00161—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mehadia Cone Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bombay Veneers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00016—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bombay Veneers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cosmo Woods Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00020—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Cosmo Woods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shiv Shankar Plywood Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00026—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Shiv Shankar Plywood Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jayshree Teak Wood Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00032—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jayshree Teak Wood Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Reliable Wood Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00039—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Reliable Wood Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shraddha Timber Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00047—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shraddha Timber Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Laminates (India) Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00053—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Laminates (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Super Naturalply Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00059—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Super Naturalply Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sulabh Plywood Industries Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00066—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sulabh Plywood Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Davis Laminates Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00072—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Davis Laminates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Osmic Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00080—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Osmic Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shanti Teak and Ply Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00086—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shanti Teak and Ply Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Senghani Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00091—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Senghani Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wonderex Manufacturing Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00100—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Wonderex Manufacturing Company Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sneh Daya Nayan Ply and Laminates  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00166—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Sneh Daya Nayan Ply and Laminates Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vritti Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00173—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Vritti Impex Private Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off from the Register and the said  
Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kanteshwar Plywood Manufacturing Company  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00107—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Kanteshwar Plywood Manufacturing Company Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Decorange Lami and Doors Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00113—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Decorange Lami and Doors Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maysore Laminates Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00127—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Maysore Laminates Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanjivani Plywood Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00135—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Sanjivani Plywood Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Signum Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00143—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Signum Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nitasha Veneers Industry Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00123—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nitasha Veneers Industry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Britto Amusements Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00466—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Britto Amusements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. NRH Fibrotech and Plastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00196—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. NRH Fibrotech and Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sayali Fin-Cap Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00190—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sayali Fin-Cap Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Remin Hldings Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00187—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Remin Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jay-An Builders Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00184—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jay-An Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bay Carriers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00181—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bay Carriers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kite International Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00177—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kite International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shoraj Consultants Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00375—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shoraj Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Divya Computers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00342—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Divya Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Borgharkar Home Finance and Leasing Company  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00145—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Borgharkar Home Finance and Leasing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manmala Recreations Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00157—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Manmala Recreations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Murbad Electrical and Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00129—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Murbad Electrical and Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Premier Electro-Gilder Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00454—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Premier Electro-Gilder Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Abhi-Jyoti Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00132—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Abhi-Jyoti Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prayangana Corbochem Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00422—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Prayangana Corbochem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vigneshwar Transways Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00445—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Vigneshwar Transways Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brij Albela Agro and Properties Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00450—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Brij Albela Agro and Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Janrina Developers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00121—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Janrina Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Parimal Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00400—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Parimal Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. B. V. Exim (India) Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00416—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. A. B. V. Exim (India) Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Banganga Construction Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00311—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Banganga Construction Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ghanekar Engineers Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00193—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Ghanekar Engineers Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Siraj Trading Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00385—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Siraj Trading Private Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off from the Register and the said  
Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pratap Fiscal and Securities Services Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00242—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Pratap Fiscal and Securities Services Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cambrian Estates Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00232—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Cambrian Estates Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off from the Register and the  
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Neha Leasing and Finance Investment Company  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00211—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Neha Leasing and Finance Investment Company Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. A. Pandit Employee Benefits Consultancy  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00459—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. K. A. Pandit Employee Benefits Consultancy Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tulsabai Power (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00470—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Tulsabai Power (India) Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Apna Plywood Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00160—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Apna Plywood Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off from the Register and the  
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shraddha Flush Doors Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00152—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Shraddha Flush Doors Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cadila Wood Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00136—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Cadila Wood Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off from the Register and the  
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yogeshwar Plywood Agency Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00129—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Yogeshwar Plywood Agency Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bingo Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00118—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Bingo Textiles Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off from the Register and the  
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mega Boards Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00107—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mega Boards Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. New Era Plywood Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00069—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. New Era Plywood Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shivom Ply-N-Wood Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00065—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shivom Ply-N-Wood Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Integra Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00044—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Integra Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Laminate Inputs Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00040—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Laminate Inputs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Makros Tea Treasure Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00037—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Makros Tea Treasure Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Malka Agencies Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00034—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Malka Agencies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Texo Timber Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00031—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Texo Timber Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Moni (Wood Products) Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00028—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Moni (Wood Products) Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gaurav Plywoods Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00025—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Gaurav Plywoods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Neolux Panels Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00022—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Neolux Panels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Asian Flavour and Fragrances Bombay  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00016—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Asian Flavour and Fragrances Bombay Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kumkum Property Development Company  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00013—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kumkum Property Development Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Poplar Wood Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00006—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Poplar Wood Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jai Bhawani Adhesives and Coating Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00413—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Jai Bhawani Adhesives and Coating Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Khadija Papers Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00408—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Khadija Papers Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off from the Register and the  
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Neelkanth Boards and Paper Products  
Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00404—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Neelkanth Boards and Paper Products Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sree Marathawada Paper Mills Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00397—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Sree Marathawada Paper Mills Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gupta Laminations Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00392—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Gupta Laminations Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Triumph Press Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00381—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. Triumph Press Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off from the Register and the  
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. P and G Corporate Services Private Limited  
Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00374—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration  
of three months from the date hereof the name of the  
M/s. P and G Corporate Services Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shweta Musical Export Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00361—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shweta Musical Export Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Apala Fine-Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00351—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Apala Fine-Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mahamane Packers and Engineers Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00285—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mahamane Packers and Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Interco Wood Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00279—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Interco Wood Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Indo-Swedish Packaging Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00274—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Indo-Swedish Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. D. P. Bhosale Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00253—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. D. P. Bhosale Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Apex Furniture Components Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00249—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Apex Furniture Components Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Essell Conductors Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00238—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Essell Conductors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunwood Wool Manufacturing Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00341—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sunwood Wool Manufacturing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chiffon Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00331—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Chiffon Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Woodfun Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00321—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Woodfun Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nav Durga Bamboo Craft Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00313—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nav Durga Bamboo Craft Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nav Tones Panels Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00294—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nav Tones Panels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Navdurga Wood Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00221—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Navdurga Wood Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Skylark Packagings Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00214—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Skylark Packagings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Skylark Wood Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00207—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Skylark Wood Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shri Shree Ply Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00201—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shri Shree Ply Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Uno Investments and Finance Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00228—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Uno Investments and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Panda Fashion Wear Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00407—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Panda Fashion Wear Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shiv-Shakti Kraft Board Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00231—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shiv-Shakti Kraft Board Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dresswala Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00187—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dresswala Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shandar Garments Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00202—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shandar Garments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Blossom Apparels Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00196—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Blossom Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sha Bhurmal Achalchand and Company  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00208—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sha Bhurmal Achalchand and Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alleppy Garments Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00320—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Alleppy Garments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Veer Enterprises Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00331—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Veer Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samudra Overseas Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00335—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Samudra Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Persia Apparel Fabrics Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00347—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Persia Apparel Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Krupa Apparels Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00373—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Krupa Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tara Granites Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00397—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Tara Granites Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Al-Jazeel Finvest Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00225—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Al-Jazeel Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mani Hotels and Properties Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00222—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Mani Hotels and Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunetra Construction and Development  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00218—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sunetra Construction and Development Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Character Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00209—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Character Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zecal Systems (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00200—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Zecal Systems (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Singhania Electroweld Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00194—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Singhania Electroweld Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Swapnapurti Financial Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00164—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Swapnapurti Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jadhav Commercial Intelligence and Detective  
Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00157—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jadhav Commercial Intelligence and Detective Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kodwa Sales Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00139—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Kodwa Sales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paradigm Poly-Plast Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00125—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Paradigm Poly-Plast Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Disha Real Estates Private Limited

Mumbai-400 002, the 5th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00111—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Disha Real Estates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gnat Exports Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00246/ADK/01(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Gnat Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mombasa Developers Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00243/ADK/  
02(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Mombasa Developers Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Scribe Express Infotech Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00381/ADK/  
03(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Scribe Express Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gargie Icetech Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00353/ADK/  
04(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Gargie Icetech Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanskruti Constructions Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00182/ADK/  
05(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Sanskruti Constructions Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samrat Namkin Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00435/ADK/  
06(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Samrat Namkin Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Swatantray Network Marketing Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00430/ADK/  
07(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Swatantray Network Marketing Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. P. S. B. Marketing Business Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00426/ADK/  
08(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. P. S. B. Marketing Business Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vidhya Infotech Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00433/ADK/  
09(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Vidhya Infotech Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Classic Plaster and Agro Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00434/ADK/  
10(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Classic Plaster and Agro Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brightstar Polymers (Pune) Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00263/ADK/  
11(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Brightstar Polymers (Pune) Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Home Net Sales and Marketing Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00143/ADK/  
12(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Home Net Sales and Marketing Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hotel Laxman Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00043/ADK/  
13(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Hotel Laxman Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sterling Network Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00419/ADK/  
14(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Sterling Network Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gopesh Agrovet Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00410/ADK/  
15(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Gopesh Agrovet Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vans Impex Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00395/ADK/  
16(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Vans Impex Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Compulogix India Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00393/ADK/  
17(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Compulogix India Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tanvi Infotech Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00359/ADK/  
18(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Tanvi Infotech Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sai Multi-Link Marketing Business Services  
Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00345/ADK/  
19(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Sai Multi-Link Marketing Business  
Services Private Limited unless cause is shown to the  
contrary, will be struck off from the Register and the said  
Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shilp-Vikas Constructions Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00339/ADK/  
20(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Shilp-Vikas Constructions Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sameer Productions Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00269/ADK/  
21(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Sameer Productions Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prithvi Shelters Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00267/ADK/  
22(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Prithvi Shelters Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Center for International Business India  
Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00261/ADK/  
23(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Center for International Business India  
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will  
be struck off from the Register and the said Company will  
be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aafreen Trading Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00256/ADK/  
24(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Aafreen Trading Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. KC Laser and Cosmetic Clinics Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00253/ADK/  
25(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. KC Laser and Cosmetic Clinics Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Medixone.Com Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00251/ADK/  
26(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Medixone.Com Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Isoftbank Technologies Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00248/ADK/  
27(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Isoftbank Technologies Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kagal Marketing and Training Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00236/ADK/  
28(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Kagal Marketing and Training Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Infotek Call Center Services Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00229/ADK/  
29(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Infotek Call Center Services Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. BMJ Computers Private Limited  
Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00227/ADK/  
30(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. BMJ Computers Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mhalasakant Realty Private Limited  
Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00224/ADK/  
31(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Mhalasakant Realty Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Perseus Engineers and Consultants Private Limited  
Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00225/ADK/  
32(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of the M/s. Perseus Engineers and Consultants Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be  
struck off from the Register and the said Company will be  
dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maxtechno (India) Private Limited  
Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00210/ADK/  
33(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Maxtechno (India) Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vishwashakti Steels and Alloys Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00221/ADK/  
34(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Vishwashakti Steels and Alloys Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. KSB Prints Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00219/ADK/  
35(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. KSB Prints Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Colour Shine Solvents (India) Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00216/ADK/  
36(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Colour Shine Solvents (India) Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Teamwork Multichannel Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00217/ADK/  
37(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Teamwork Multichannel Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cyberem Services Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00208/ADK/  
38(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Cyberem Services Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Varad Informatics Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00206/ADK/  
39(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Varad Informatics Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vyusta Digital Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00596/ADK/  
40(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Vyusta Digital Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pune Customers Network Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00600/ADK/  
41(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Pune Customers Network Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ivynet On-line Network Marketing Company  
Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00154/ADK/  
42(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Ivynet On-line Network Marketing  
Company Private Limited unless cause is shown to the  
contrary, will be struck off from the Register and the said  
Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saibai Constructions Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00138/ADK/  
43(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Saibai Constructions Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Abhinav Agritech Marketing Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00073/ADK/  
45(i) - Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Abhinav Agritech Marketing Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hi-Q Institute of Information Techknowledgy  
Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00136/ADK/  
46(i) - Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Hi-Q Institute of Information  
Techknowledgy Private Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off from the Register and the said  
Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mounmeru Marketing Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00257/ADK/  
44(i) - Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Mounmeru Marketing Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vikasratna Agro Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00599/ADK/  
47(i) - Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Vikasratna Agro Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shri Swami Samarth Sales and Marketing  
Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00188/ADK/  
48(i) - Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of the M/s. Shri Swami Samarth Sales and Marketing Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be  
struck off from the Register and the said Company will be  
dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nakshatra Informatics Technologies Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00598/ADK/  
49(i) - Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of the M/s. Nakshatra Informatics Technologies Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be  
struck off from the Register and the said Company will be  
dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hopkins Impex Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00597/ADK/  
50(i) - Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Hopkins Impex Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dyna-Air Ventilation Systems Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00130/ADK/  
51(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Dyna-Air Ventilation Systems Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Silvernet Marketing Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00594/ADK/  
52(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Silvernet Marketing Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. N. Pillai Infotech Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00449/ADK/  
53(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. R. N. Pillai Infotech Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. D. Manufacturing and Resources Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00593/ADK/  
54(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. K. D. Manufacturing and Resources Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ya-Ho-Ka Auto Track Marketing and Services  
Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00139/ADK/  
55(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Ya-Ho-Ka Auto Track Marketing and  
Services Private Limited unless cause is shown to the  
contrary, will be struck off from the Register and the said  
Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Mahalaxmi Trading and Agro Exports  
Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00592/ADK/  
56(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Shree Mahalaxmi Trading and Agro  
Exports Private Limited unless cause is shown to the  
contrary, will be struck off from the Register and the said  
Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Laksh Software Solutions Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00591/ADK/  
57(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Laksh Software Solutions Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sambhaji Network Marketing Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00590/ADK/  
58(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Sambhaji Network Marketing Private

Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Star Line Furnitures Network Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00589/ADK/  
59(i) —Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Star Line Furniture Network Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chem Flux Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00588/ADK/  
60(i) — Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Chem Flux Network Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanghar Bafna Foods Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00587/ADK/  
61(i) —Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Sanghar Bafna Foods Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dynamic Multi-Link Marketing Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00586/ADK/  
62(i) — Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Dynamic Multi-Link Marketing Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Fontasey Cooltech Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00584/ADK/  
63(i) —Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Fontasey Cooltech Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Windwell Engineering Company Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00128/ADK/  
64(i) —Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Windwell Engineering Company Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Parasnath Packaging Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00583/ADK/  
65(i) —Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Parasnath Packaging Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samarth Packaging Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00581/ADK/  
66(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Samarth Packaging Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. D. Technologies Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00031/ADK/  
67(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. S. D. Technologies Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alimits Technologies Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00580/ADK/  
68(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Alimits Technologies Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vicitech Softwares Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00127/ADK/  
69(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Vicitech Softwares Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Masoom Children Hospital Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00488/ADK/  
70(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Masoom Children Hospital Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prajakta Electricals and Electronics Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00672/ADK/  
71(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Prajakta Electricals and Electronics Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nav Chaitanya Vikas Institute Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00416/ADK/  
72(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Nav Chaitanya Vikas Institute Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mayuresh Communications Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00636/ADK/  
73(i) —Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Mayuresh Communications Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pratibha Online Communication Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00051/ADK/  
74(i) —Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Pratibha Online Communications Network  
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will  
be struck off from the Register and the said Company will  
be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Infosearch Computer Technologies Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00049/ADK/  
75(i) —Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Infosearch Computer Technologies  
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will  
be struck off from the Register and the said Company will  
be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tahriq Marketing Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00433/ADK/  
76(i) —Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Tahriq Marketing Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ravis Dairy Farm Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00438/ADK/  
77(i) —Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Ravis Dairy Farm Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kakade Patil Agro Farms Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00460/ADK/  
78(i) —Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Kakade Patil Agro Farms Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Z Net Expansion Trade System Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00467/ADK/  
79(i) —Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Z Net Expansion Trade System Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pan Hospicon and Health Services Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00479/ADK/  
81(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Pan Hospicon and Health Services  
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will  
be struck off from the Register and the said Company will  
be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mayfair C and F Services Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00485/ADK/  
81(ii)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Mayfair C and F Services Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhavarth Auto Parts Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00043/ADK/  
82(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Bhavarth Auto Parts Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. D. P. Computer Education Systems Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00280/ADK/  
83(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. D. P. Computer Education Systems  
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will  
be struck off from the Register and the said Company will  
be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shri Chakradhar Petrochemicals Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00285/ADK/  
84(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Shri Chakradhar Petrochemicals Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sheena Paper Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00289/ADK/  
85(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Sheena Paper Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rathod Agrotech Technology and Research Centre  
Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00292/ADK/  
86(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Rathod Agrotech Technology and  
Research Centre Private Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off from the Register and the said  
Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the ~~matter of~~ Companies Act, 1956 and of  
M/s. ~~Vainateya~~ Solutions Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) ~~MCA~~RoC-Pune/Sec 560/2007/00299/ADK/  
87(i)—Notice is ~~hereby~~ given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of ~~three~~ months from the date hereof the  
name of the ~~M/s. Vainateya~~ Solutions Private Limited  
unless cause is ~~shown~~ to the contrary, will be struck off  
from the Register ~~and~~ the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the ~~matter of~~ Companies Act, 1956 and of  
M/s. ~~Tridal Safe~~ Services Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) ~~MCA~~RoC-Pune/Sec 560/2007/00328/ADK/  
88(i)—Notice is ~~hereby~~ given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of ~~three~~ months from the date hereof the  
name of the ~~M/s. Tridal Safe~~ Services Private Limited  
unless cause is ~~shown~~ to the contrary, will be struck off  
from the Register ~~and~~ the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the ~~matter of~~ Companies Act, 1956 and of  
M/s. ~~Pier Import-Export~~ Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) ~~MCA~~RoC-Pune/Sec 560/2007/00333/ADK/  
89(i)—Notice is ~~hereby~~ given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of ~~three~~ months from the date hereof the  
name of the ~~M/s. Pier Import-Export~~ Private Limited unless  
cause is ~~shown to the~~ contrary, will be struck off from the  
Register and the ~~said~~ Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the ~~matter of~~ Companies Act, 1956 and of  
M/s. ~~Abhyankar~~ Phadtare Developers Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) ~~MCA~~RoC-Pune/Sec 560/2007/00168/ADK/  
90(i)—Notice is ~~hereby~~ given pursuant to Sub section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. ~~Abhyankar~~ Phadtare Developers Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Moon Scape Constructions Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00170/ADK/  
91(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Moon Scape Constructions Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Moon Scape Exports Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00191/ADK/  
92(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Moon Scape Exports Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalstar Tech Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00186/ADK/  
93(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Kalstar Tech Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yogesh Builders Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00179/ADK/  
94(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Yogesh Builders Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalimata Merchandise Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00205/ADK/  
95(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Kalimata Merchandise Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Satav Exports Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00208/ADK/  
96(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Satav Exports Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sancheti Developers and Promoters Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00211/ADK/  
97(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Sancheti Developers and Promoters  
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will  
be struck off from the Register and the said Company will  
be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zygosys Marketing Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00217/ADK/  
98(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Zygosys Marketing Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shri Vitthal Cables Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00225/ADK/  
99(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Shri Vitthal Cables Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zueus Software and Credit Monitoring Systems  
Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00231/ADK/  
100(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Zueus Software and Credit Monitoring  
Systems Private Limited unless cause is shown to the  
contrary, will be struck off from the Register and the said  
Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dale Networks Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00234/ADK/  
101(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Dale Networks Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Swaym Marketing Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00236/ADK/  
102(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Swaym Marketing Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nadaf Entertainment Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00242/ADK/  
103(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Nadaf Entertainment Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shivsai Infosys Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00142/ADK/  
104(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Shivsai Infosys Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Duro Auto Accessories Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00137/ADK/  
105(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Duro Auto Accessories Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ahilya Packers Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00176/ADK/  
106(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Ahilya Packers Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Caprine Agro-Tech Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00165/ADK/  
109(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Caprine Agro-Tech Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shivshanti Constructions Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00169/ADK/  
107(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Shivshanti Constructions Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Digitrix Infomedia Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00161/ADK/  
108(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Digitrix Infomedia Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sambhav Cables Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00579/ADK/  
110(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Sambhav Cables Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Qsera Telenet Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00295/ADK/  
111(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Qsera Telenet Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Akshay Preciscon Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00187/ADK/  
112(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Akshay Preciscon Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rabbit Brush Manufacturing Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00194/ADK/  
113(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Rabbit Brush Manufacturing Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Stalwarts Advertising Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00198/ADK/  
114(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Stalwarts Advertising Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hotel Roshan Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00199/ADK/  
115(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Hotel Roshan Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rudram Image Processors Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00364/ADK/  
116(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Rudram Image Processors Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. D. J. R. Hotel Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00367/ADK/  
117(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. D. J. R. Hotel Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Body Mind and Soul International Health Resort  
Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00387/ADK/  
118(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Body Mind and Soul International Health  
Resort Private Limited unless cause is shown to the contrary,  
will be struck off from the Register and the said Company  
will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amdale Tool Engineering Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00390/ADK/  
119(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Amdale Tool Engineering Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arshiya Medi-Mark Consortium Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00399/ADK/  
120(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Arshiya Medi-Mark Consortium Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Well Track Sales Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00409/ADK/  
121(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Well Track Sales Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Joint Research Systems Services Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00320/ADK/  
122(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Joint Research Systems Services Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Modern Confectionery Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00267/ADK/  
123(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Modern Confectionery Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Poona Panchganga Steel Rerolling Mills  
Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00269/ADK/  
124(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Poona Panchganga Steel Rerolling Mills  
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will  
be struck off from the Register and the said Company will  
be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. V. Mohite Constructions Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00271/ADK/  
125(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. A. V. Mohite Constructions Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajdeep Blowers Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00275/ADK/  
126(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Rajdeep Blowers Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Plymec Laminates Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00402/ADK/  
127(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Plymec Laminates Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nam Rata Projects Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00404/ADK/  
128(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the  
name of the M/s. Nam Rata Projects Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saiflon Products (India) Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00406/ADK/129(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Saiflon Products (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rotary Products (India) Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00251/ADK/130(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Rotary Products (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shri Laxmi Sugarcane Process Private Limited

Pune-411 004, the 28th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec 560/2007/00417/ADK/131(i)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shri Laxmi Sugarcane Process Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

KATKAR VISHNU PANDURANG  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cycon Antibiotics Private Limited

Ernakulam-682 021, the 15th April 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/Sec 560/2008/00310—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of the M/s. Cycon Antibiotics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

AMEERUL MILLATH S. M.  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following Companies

Cuttack-753 001, the 2nd April 2008

No. ROC/Sec. 560(3)/20—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	15-003208	M/s Visual Link Private Limited
2.	15-004227	M/s. Ganapati Iron and Steel Company Limited

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following Companies

Cuttack-753 001, the 17th April 2008

No. ROC/Sec. 560 (5)/187—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved.

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-003824	M/s Maa Sarala Stone Private Limited
2.	15-005794	M/s Mahima Buildcon Private Limited

1	2	3
3.	15-003460	M/s. Balasore Chamber of Commerce Limited
4.	15-006698	M/s. Hotel Barabati Limited

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following Companies

Bangalore-560034, the 21st April 2008

No. ROCB/Sec. 560(3)/TA/JK/AMS/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on expiry of of three months from the date hereof, the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	34799	M/s Diya Film Makes Private Limited
2.	32543	M/s. Diya Agritech Private Limited
3.	20811	M/s. Premsai Electricals Private Limited
4.	16538	M/s. Sea Shore Power Batteries Private Limited
5.	14221	M/s. Reactive Materials Limited
6.	16322	M/s. Angadi Scientific Farms and Resorts International Limited
7.	14000	M/s. Dhan Finance Services Limited
8.	13958	M/s. Canal Electronics Limited
9.	16779	M/s. Maruti Airways Limited
10.	16524	M/s. Naveen Watanibe Agro-Tech Limited

1	2	3
11.	14012	M/s. Velvet (India) J. Constructions Limited
12.	16448	M/s. Misty Housing Finance Limited
13.	16353	M/s. Soham Sugarcane Processors Limited
14.	16347	M/s. Mitha Musk Limited
15.	16712	M/s. Aquin Food Sand Exports Limited
16.	23950	M/s. Adroit Hotels Limited
17.	22787	M/s. Estate Coffee Processors Private Limited
18.	23578	M/s. Signature Hitre Purchase and Leasing Limited
19.	22315	M/s. Sathya Sai International Hotels Limited
20.	22702	M/s. Sri Kamadhenu Green Forest Limited
21.	22219	M/s. Janachaya Agro Estates Limited
22.	22397	M/s. Shamsunder Trading Company Limited
23.	23254	M/s. Supreme Biotech Limited
24.	22892	M/s. Softec Hyper Explorer Limited
25.	22512	M/s. South Star Exports Limited
26.	23698	M/s. Suncore Software Development Centre Limited
27.	23422	M/s. Vthreek Infotech Limited
28.	23755	M/s. Map Commercial Creatives Limited
29.	23910	M/s. City Tow Thousand (India) Limited
30.	16283	M/s. United Floriculture India Limited
31.	16536	M/s. Sunline Socks Limited

A. M. SRIDHARAN  
Dy. Registrar of Companies  
Karnataka